



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28—जुलाई 4, 2008 (आषाढ़ 7, 1930)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28—JULY 4, 2008 (ASADHA 7, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुम्बई-400 021, दिनांक 23 जून 2008

दिनांक 6 जून 2008 की सूचना के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत-बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों की चार रिक्तियों के लिए, यथाविधि नामित चुनाव-प्रत्याशियों के नाम और पते दिए गये थे। इस सूचना के संदर्भ, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 जून 2008 को बैंक के आडिटोरियम, स्टेट बैंक के पीछे, मैडम कामा रोड शाखा, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई-400 021 (महाराष्ट्र), में आयोजित शेयरधारकों की बैठक में निम्नलिखित प्रत्याशियों को बैंक के केंद्रीय-बोर्ड में यथाविधि निर्वाचित घोषित किया गया:--

- | | |
|--|--|
| 1. डॉ. अशोक झुनझुनवाला सी-2/2, 5 थर्ड लूप रोड आई आई टी, मद्रास चेन्नई-600 036 | 3. श्री दिलीप सी. चोकसी ई-7, सी फेस पार्क 50, भूलाभाई देसाई रोड मुंबई-400 026 |
| 2. श्री सुमन कुमार बेरी एन-42, पंचशिला पार्क नई दिल्ली-110 017 | 4. श्री एस. वेंकटचलम बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी (प्रथम तल) हार्बर हाईट्स, एन ए सावंत मार्ग, कोलाबा, मुंबई-400 005। |

एस. के. भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

श्रम मंत्रालय
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
हैदराबाद, दिनांक 15 मई 2008

सं. क.भ.नि.सं/अ.कै.आ/द.अं/जी.एल-240 ए/1(4) की अधिसूचना/2008/111--

जैसा कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने

निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में पाया है कि इन स्थापनाओं के नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 के 19) के उपबंधों को उनके निम्न निम्न विभिन्न स्थापनाओं को लागू किए जाने हेतु सहमत हैं:-

| क्रम सं. | कोड संख्या | स्थापना का नाम | व्याप्ति व सहमति की तिथि |
|----------|-------------------|---|--------------------------|
| 1. | केआर/केएनआर/18427 | मे. कन्नूर एस.सी.प्रेस वर्कर्स इंड को-ऑप सोसाइटी, कण्णूर | 01.04.2007 |
| 2. | केआर/केसी/21617 | मे. सुनी कलर सॉट, आलप्पी | 01.01.2007 |
| 3. | केआर/केसी/21647 | मे. जन शिक्षण संस्थान, एर्नाकुलम | 01.12.2006 |
| 4. | केआर/टीवीएम/22140 | मे. शोगिनी सिस्टम्स, पीटीपी नगर, त्रिवेंद्रम | 01.12.2006 |
| 5. | केआर/केके/23105 | मे. जिन्दग्री ट्रैवल्स, पालक्काड़ | 01.02.2006 |
| 6. | केआर/केके/23302 | मे. कोल्लेगोड मर्चेंट्स को.ऑप सोसाइटी लि, पालक्काड़ | 01.03.2007 |
| 7. | केआर/केसी/21727 | मे. लिसिएक्स कॉलेज, त्रिशूर | 05.03.2007 |
| 8. | केआर/केसी/21619 | मे. गोर मेडिकल गैस एक्विपमेंट(पी)लि, कक्कनाड | 01.01.2007 |
| 9. | केआर/केसी/21534 | मे. वेस्ट बेक्स ओवन्स(पी)लि, एरा ए रोड, कोच्ची | 01.07.2006 |
| 10. | केआर/केसी/21697 | मे. चेरुवरनम कोइर मैट्स एण्ड मैटिंग को.ऑप सोसाइटी लि, चेरताला | 01.03.2007 |
| 11. | केआर/केके/23216 | मे. आईसीईई पीईई गैस एजेन्सी, पाल्लकाड़ | 01.10.2006 |
| 12. | केआर/केके/23062 | मे. इरशाद इंग्लिश स्कूल, मल्लापुरम जिला | 01.11.2005 |
| 13. | केआर/केके/23170 | मे. माइसेस पब्लिक स्कूल, मल्लापुरम जिला | 01.07.2006 |
| 14. | केआर/केएनआर/18266 | मे. अग्रीन हैशको प्रा.लि., पाल्लीकुन्नू | 01.10.2004 |
| 15. | केएन/बीएन/42029 | मे. वैष्णवी कंट्रोल्स एण्ड अकौस्टिक, बेंगलूर | 01.01.2007 |
| 16. | केएन/बीएन/41984 | मे. एब्रहम मेमोरियल ट्रस्ट, बेंगलूर | 11.01.2006 |
| 17. | केएन/बीएलआर/41984 | मे. संदूर पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक नियामिता, बेल्तारी | 07.01.2006 |
| 18. | केएन/बीएलआर/28341 | मे.राजीव गांधी इंस्टिट्यूट फॉर स्टील टेक्नॉलॉजी बेल्तारी | 05.01.2006 |
| 19. | केएन/बीएन/41992 | मे. कर्नाटका वीरशैव विद्याभिवृद्धि संस्थे, बेंगलूर | 11.01.2006 |
| 20. | केएन/बीएलआर/28349 | मे. श्री गंगाधरेश्वर सौहार्द सहकारी बैंक नियामिता, कोप्पल | 07.01.2006 |
| 21. | केएन/बीएलआर/28376 | मे. तवरगेरा पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक नियामिता, कोप्पल | 12.01.2006 |
| 22. | केएन/बीएन/41954 | मे. कैब्रिज पब्लिक स्कूल, बेंगलूर | 10.01.2006 |

| | | | |
|-----|--------------------|---|------------|
| 23. | केएन/41882 | मे. ऑर्चिड ट्रेवल्स एण्ड टावर्स, बेंगलूर | 09.01.2006 |
| 24. | केएन/बीएन/42055 | मे. आईडीजी वेंचर्स इंडिया अड्वाइजर्स प्रा.लि, बेंगलूर | 12.01.2006 |
| 25. | केएन/पीएनवाई/29874 | मे.भैरवेश्वर क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि,बेंगलूर | 16.02.2005 |
| 26. | केएन/पीएनवाई/29055 | मे. सिद्धगंगा अर्बन को.ऑप बैंक लि, टुमकुर | 03.01.2000 |
| 27. | केएन/पीएनवाई/29699 | मे. पोलु पैकर्स, बेंगलूर | 06.01.2004 |
| 28. | केएन/पीएनवाई/29693 | मे. इंडस इलेक्ट्रो कंट्रोल्स, बेंगलूर | 06.01.2004 |
| 29. | केएन/पीएनवाई/29121 | मे. इनसाइट कैम सेंटर, बेंगलूर | 03.01.2001 |
| 30. | केएन/एमएन/20873 | मे. अक्षय पॉवर सर्विसेस, मंगलूर | 07.01.2003 |
| 31. | केएन/बीएन/41604 | मे. भोरुका पार्क प्रा.लि, बेंगलूर | 04.01.2006 |
| 32. | केएन/बीएन/42101 | मे. इंफोप्रिंट इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर | 11.01.2006 |
| 33. | केएन/बीएन/41817 | मे. पेंटागॉन सर्विस प्रा.लि., बेंगलूर | 08.01.2006 |
| 34. | केएन/बीएन/41898 | मे. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एण्ड सोसाइटी, बेंगलूर | 07.01.2006 |
| 35. | केएन/बीएन/41675 | मे. सुप्रभात क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि | 06.01.2006 |
| 36. | केएन/बीएन/42007 | मे. लक्ष्मी नेटवर्क सोल्युशन्स, बेंगलूर | 11.01.2006 |
| 37. | केएन/बीएन/42076 | मे. एम्फनी सिस्टम्स इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर | 12.01.2006 |
| 38. | केएन/पीएनवाई/29432 | मे. मॉडेलिटिक्स इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर | 01.01.2003 |
| 39. | केएन/42314 | मे. तुलसी सिरेमिक्स, बेंगलूर | 01.05.2007 |
| 40. | केएन/41864 | मे. स्टैटक्लीन टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर | 01.09.2006 |
| 41. | केएन/36713 | मे. द युनियन फारमर्स सर्विस को.ऑप बैंक लि, कडकोला, मैसूर तालुक | 01.10.2006 |
| 42. | केएन/सीकेआर/37125 | मे. एल ए एम पी सोसाइटी, कोप्पा, चिकमगलूर | 01.11.2004 |
| 43. | केएन/सीकेआर/37124 | मे. चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ग्रैजुएट मल्टिपरपज को.ऑप सोसाइटी, चिकमगलूर | 01.09.2004 |
| 44. | केएन/सीकेआर/37196 | मे. व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक,गोनिबीडू, चिकमगलूर जिला | 01.03.2005 |
| 45. | केएन/36474 | मे. भारतीय सहकार बैंक नियामिता, मैसूर | 01.02.2005 |
| 46. | केएन/42273 | मे. स्पेस जियो टेक, बेंगलूर | 01.04.2007 |
| 47. | केएन/30329 | मे. कण्व पब्लिक स्कूल, बेंगलूर | 01.01.2007 |
| 48. | केएन/42264 | मे. मेरिटस एनालिटिक्स इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर | 01.04.2007 |
| 49. | केएन/38428 | मे. मंगलूर युनिवर्सिटी एम्प्लॉईस क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि., मंगलूर | 01.09.2006 |
| 50. | केएन/42138 | मे. जेनित रियाल्टी प्रॉजेक्ट्स प्रा.लि, बेंगलूर | 01.01.2007 |
| 51. | केएन/42061 | मे. त्रिशूल इंजीनियर्स, बेंगलूर | 25.01.2007 |
| 52. | केएन/42134 | मे. कांफरेंस कॉल सर्विसेस इंडिया(पी)लि,बेंगलूर | 01.02.2007 |
| 53. | केएन/38220 | मे. वर्कवेल मशीन टूल्स, मंगलूर | 01.02.2005 |
| 54. | केएन/36668 | मे. मल्लानायकनकते एम पी सी एस लि, मैसूर | 01.06.2006 |
| 55. | केएन/सीकेआर/37026 | मे. मदेनूर प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक नियामित, हसन | 01.04.2003 |

| | | | |
|-----|--------------------|--|------------|
| 56. | केएन/सीकेआर/37130 | मे. श्री वासवांबा को.ऑप बैंक लि., होलेनरसिपुरा, हसन जिला | 01.12.2004 |
| 57. | केएन/सीकेआर/37164 | मे. व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक, चिकमगलूर | 01.01.2005 |
| 58. | केएन/सीकेआर/37165 | मे. व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक, इंदवरा, चिकमगलूर | 01.01.2005 |
| 59. | केएन/सीकेआर/37178 | मे. निदिगेरे पीएसीसी बैंक लि, हसन जिला | 01.02.2005 |
| 60. | केएन/सीकेआर/37199 | मे. व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक, सिरवासे, चिकमगलूर | 01.03.2005 |
| 61. | केएन/सीकेआर/37216 | मे. शिवा सहकारी बैंक नियमित तरिकेरे, चिकमगलूर | 01.07.2005 |
| 62. | केएन/सीकेआर/37221 | मे. पीएसीसी बैंक लि., मोसले, हसन जिला | 01.08.2005 |
| 63. | केएन/सीकेआर/37244 | मे. श्री वेंकटेश्वरा कलर प्रिंट्स, हसन | 01.04.2006 |
| 64. | टीएन/एमडी/57845 | मे. होटल सुगन्या, दिंडिगल | 01.11.2006 |
| 65. | टीएन/एमडी/57665 | मे. अरुलमिगु वंदीकलिअम्मन तिरुकोइल, दिंडिगल | 01.03.2006 |
| 66. | टीएन/टीआई/55730 | मे. अरुलमिगु शक्ति गणपति तिरुकोइल | 01.03.2006 |
| 67. | टीएन/टीआई/55729 | मे. अरुलमिगु तेप्पकुलम मरिअम्मन तिरुकोइल | 01.03.2006 |
| 68. | टीएन/एसएलएम/70365 | मे. एल एण्ड टी कृष्णागिरि, धर्मपुरी | 01.04.2006 |
| 69. | टीएन/एसएलएम/70487 | मे. के.के. 249 सिगरमगनपल्ली प्राइमरी एग्रि-कल्चरल को.ऑप बैंक, तोट्टकनम ग्राम | 01.11.2006 |
| 70. | टीएन/एमबी/66046 | मे. बाल्डा मदरसन सोल्युशन इंडिया लि., | 01.07.2006 |
| 71. | टीएन/एमबी/66193 | मे. सरवना एंटरप्राइजेस | 01.07.2006 |
| 72. | टीएन/एमबी/66200 | मे. रामु कन्स्ट्रक्शन्स | 16.11.2006 |
| 73. | टीएन/एमबी/66178 | मे. आदित्या इंजीनियरिंग | 01.08.2006 |
| 74. | टीएन/एमबी/66048 | मे. अरुलमिगु देवी बलिअम्मन तिरुकोइल | 01.03.2006 |
| 75. | टीएन/एमबी/66122 | मे. अरुलमिगु देवी करुमरिअम्मन टेम्पल | 01.03.2006 |
| 76. | टीएन/एमबी/66121 | मे. अरुलमिगु कदुंबडि चित्रम्मन टेम्पल | 01.03.2006 |
| 77. | टीएन/एमबी/66280 | मे. सेल्व विनायगा इंडस्ट्रिज | 01.11.2006 |
| 78. | टीएन/एमबी/66109 | मे. डेक्सटेरिटी केपीओ सर्विसेस प्रा.लि., | 01.05.2006 |
| 79. | टीएन/74173 | मे. चेंगम अग्रिकल्चर प्रोड्यूसर्स को.ऑप मार्केटिंग सोसाइटी | 01.06.2006 |
| 80. | टीएन/वीएल/74158 | मे. अलगनंदल प्राइमरी अग्रिकल्चरल को.ऑप बैंक लि. | 01.05.2006 |
| 81. | टीएन/वीएल/74128 | मे. अरुलमिगु अरुणाचलेश्वरर टेम्पल | 01.03.2006 |
| 82. | टीएन/वीएल/74142 | मे. अरुलमिगु रेगुगम्बाई अम्मन टेम्पल | 01.04.2006 |
| 83. | टीएन/पीडीवाई/1555 | मे. पाडिचेरी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल | 01.09.2006 |
| 84. | टीएन/वीएल/74127 | मे. अरुलमिगु बालसुब्रमणिसामी टेम्पल | 01.03.2006 |
| 85. | टीएन/एमडीयु/42817 | मे. श्रीवल्ली वरदराज मैट्रिकुलेशन स्कूल, वरदराजनगर | 01.01.2003 |
| 86. | टीएन/एमडीयु/57614 | मे. अरुलमिगु धर्मसास्त तिरुकोइल, अंडिपट्टी | 01.03.2006 |
| 87. | टीएन/एमडीयु/57817 | मे. के एस एम कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, मदुरै | 01.10.2006 |
| 88. | टीएन/टीआरवाई/43743 | मे. वी. अय्यप्पन मन्नरगुडी पोस्ट | 01.06.2001 |
| 89. | टीएन/टीआरवाई/43740 | मे. विनोलिया टूरिस्ट कैम्प, नागोर | 01.06.2001 |
| 90. | टीएन/टीआरवाई/43592 | मे. इंडो-ब्रिटिश मैट्रिकुलेशन स्कूल, पदक्कुडी | 01.04.2000 |

| | | | |
|------|--------------------|--|------------|
| 91. | टीएन/टीआरवाई/43591 | मे. राज ट्रांसपोर्ट्स, कुबकोणम | 01.04.2000 |
| 92. | टीएन/टीआरवाई/43746 | मे. एस आर कैब्स, नागोर | 01.06.2001 |
| 93. | टीएन/टीआरवाई/43744 | मे. पी.रामदास, कुबकोणम | 01.05.2001 |
| 94. | टीएन/टीआरवाई/43749 | मे. आर सुंदरमूर्ति, मयिलदुतुरै | 01.05.2001 |
| 95. | टीएन/टीआई/55744 | मे. अरुलमिगु मुत्तुमलैअम्मन तिरुकोविल | 01.03.2006 |
| 96. | टीएन/एमडी/57018 | मे. एस्सार पेंटागान सिस्टम्स | 01.03.2004 |
| 97. | टीएन/एमडी/57043 | मे. क्यु.1198, तिरुप्पुलानी पंचायत युनियन एम्प्लॉईस एंड टीचर्स को.ऑप थ्रिप्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि. | 01.04.2004 |
| 98. | टीएन/एमडी/57608 | मे. एम.एस.1159, अविलिपट्टी मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी | 01.01.2006 |
| 99. | टीएन/एमडी/57078 | मे. एम.एस.1158, वीरचित्रमपट्टी मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी लि. | 01.06.2004 |
| 100. | टीएन/एमडी/42975 | मे. श्री मुरुगन इंजीनियरिंग वर्क्स | 01.12.2003 |
| 101. | टीएन/एमडी/57059 | मे.डी.डी.462, सनरपट्टी मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी लि. | 01.05.2004 |
| 102. | टीएन/वीएल/74100 | मे. सन स्टील वर्क्स | 01.03.2006 |
| 103. | टीएन/एमडी/57603 | मे. एम.डी.एसपीएल.194 तेनी अलीनगरम को.ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि. | 01.01.2006 |
| 104. | टीएन/टीबीएम/60099 | मे. श्रीवरसिथि विनायगार इंडस्ट्रिज | 01.07.2001 |
| 105. | टीएन/टीआर/44516 | मे. राजाली होटल | 01.03.2005 |
| 106. | टीएन/पीसी/1460 | मे.शरणा सोशलएंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन | 01.02.2006 |
| 107. | टीएन/टीबीएम/60314 | मे. देजंग मोपाटर्स प्रा. लि. | 01.12.2002 |
| 108. | टीएन/टीबीएम/60557 | मे. एनपीएस टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. | 01.06.2004 |
| 109. | टीएन/टीबीएम/60264 | मे. जीवन लॉजिस्टिक्स (पी) लि. | 01.12.2002 |
| 110. | टीएन/टीबीएम/60482 | मे. चेन्नै मौल्ड्स | 01.04.2004 |
| 111. | टीएन/60521 | मे. आटोमैटिक स्प्रिंग इंडस्ट्रीज | 01.03.2004 |
| 112. | टीएन/टीएमबी/60347 | मे. विन बायोटेक सिस्टम्स लि. | 01.04.2003 |
| 113. | टीएन/एमडी/57194 | मे. गीता लैमिनेशन | 01.11.2004 |
| 114. | टीएन/एमडी/42804 | मे. एन.एन.496, बोगलूर पंचायत युनियन एम्प्लॉईस एंड टीचर्स को.ऑप थ्रिप्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी | 01.12.2002 |
| 115. | टीएन/एमडी/57539 | मे. क्यु.437 काकिवदनपट्टी प्राइमरी एग्री- कल्चरल को.ऑप बैंक लि. | 01.09.2005 |
| 116. | टीएन/एमडी/57370 | मे. डी.डी.378, ओड्डनछत्रम को.ऑप बिल्डिंग सोसाइटी लि. | 01.01.2005 |
| 117. | टीएन/एमडी/42902 | मे. अंबेला ल हेनरिच मेमोरियल ट्रस्ट | 01.05.2003 |
| 118. | टीएन/एमडी/57438 | मे. करपागम आटो हाउस | 01.04.2005 |
| 119. | टीएन/एमडी/57468 | मे. श्री कोडाई असोसिएट्स | 01.05.2005 |
| 120. | टीएन/एमडी/57443 | मे. अलगर रेजिग्स (पी) लि. | 01.04.2005 |
| 121. | टीएन/एमडी/57133 | मे. तंगम इंजीनियरिंग वर्क्स | 01.09.2004 |
| 122. | टीएन/एमडी/57561 | मे. रमणी इंजीनियरिंग | 01.10.2005 |

| | | | |
|------|------------------|---|------------|
| 123. | टीएन/एमडी/57526 | मे. ए2925 अलगपुरी प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप बैंक | 01.08.2005 |
| 124. | टीएन/एमडी/57389 | मे. के.एक. बायोनेड | 01.02.2005 |
| 125. | टीएन/एमडी/42968 | मे. रूरल एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट | 01.11.2003 |
| 126. | टीएन/एमडी/57460 | मे.ए2133 करियमपट्टी प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप बैंक | 01.05.2005 |
| 127. | टीएन/एमडी/57456 | मे. ए2164, वीरप्पा गौडवलसु प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप बैंक | 01.04.2005 |
| 128. | टीएन/एमडी/57490 | मे. इंस्टिट्यूट ऑफ द सोलजर्स ऑफ गॉड | 01.06.2005 |
| 129. | टीएन/सीबी/56769 | मे. इस्टमैन क्लोथिंग कंपनी | 01.06.2004 |
| 130. | टीएन/5081 | मे. इनलॉजिक बिज़कॉम(पी) लि. | 01.09.2004 |
| 131. | टीएन/एमडी/57596 | मे. आरए413 त्यागी शंकरलिंगनार इंस्टिट्यूट ऑफ को.ऑप मैनेजमेंट | 01.12.2005 |
| 132. | टीएन/51734 | मे. ज़िलान कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा.लि. | 01.12.2005 |
| 133. | टीएन/एमडी/57501 | मे. सी.आर.पैकेजिंग | 01.07.2005 |
| 134. | टीएन/एमडी/57459 | मे. सूर्या केमिकल्स मे.नित्या मैच वर्क्स | 02.05.2005 |
| 135. | टीएन/एमडी/57439 | मे. नित्या मैच वर्क्स | 01.04.2005 |
| 136. | टीएन/एमडी/57449 | मे. विनोद कलर्स | 01.04.2005 |
| 137. | टीएन/एमडी/57045 | मे. 424, मेलतिरुमाणिकम मिल्क प्राड्युसर्स को.ऑप सोसाइटी लि. | 01.04.2004 |
| 138. | टीएन/एमडी/57395 | मे. अरुपुकोट्टई श्री जसविलास लि. | 01.02.2005 |
| 139. | टीएन/एमडी/57244 | मे. मुत्तु इलेक्ट्रिकल कांट्राक्ट वर्क्स | 01.12.2004 |
| 140. | टीएन/एमडी/57453 | मे. चैम्पियन प्रॉसेस | 01.04.2005 |
| 141. | टीएन/एमडी/57077 | मे. श्री करपागा प्रॉडक्ट्स | 01.06.2004 |
| 142. | टीएन/एमडी/57450 | मे. सेल्वलक्ष्मी पैकेजिंग | 01.04.2004 |
| 143. | टीएन/एमडी/42952 | मे. तेइवाने इंडस्ट्रीज | 01.09.2003 |
| 144. | टीएन/एमडी/57462 | मे. कृष्णा केमिकल इंडस्ट्रीज | 02.05.2005 |
| 145. | टीएन/एमडी/57253 | मे. अरुण आटोमोबाइल्स | 01.12.2004 |
| 146. | टीएन/एमडी/57520 | मे. डी एम जे हाई-टेक टूल रूम | 01.08.2005 |
| 147. | टीएन/एमडी/57004 | मे. वीनस सेक्युरिटी फोर्स | 01.02.2004 |
| 148. | टीएन/एमडी/57327 | मे. डीडी193 दिडिगल को.ऑप हाउसिंग सोसाइटी लि. | 01.01.2005 |
| 149. | टीएन/एमडी/57433 | मे. ए 79/1145 दिडिगल को.ऑप बिल्डिंग सोसाइटी लि. | 01.03.2005 |
| 150. | टीएन/एमडी/57190 | मे. क्यू 459 कोट्स वीयेल्ला एम्लार्ड्स एंड अदर्स को.ऑप. सोसाइटी लि. | 01.11.2004 |
| 151. | टीएन/एमडी/7379 | मे. पॉप्युलर स्प्रिंग्स एंड वायर प्रॉडक्ट्स | 01.02.2005 |
| 152. | टीएन/एमडी/57360 | मे. नीट एंड क्लीन सर्विस स्क्वाड | 01.01.2005 |
| 153. | टीएन/एमडी/57224 | मे. सुरेश गैस एजेन्सीस | 01.11.2004 |
| 154. | टीएन/टीएएम/60489 | मे. फॉर्मो प्लास्टिक्स कंट्रोल प्रा.लि. | 01.04.2004 |
| 155. | टीएन/एमडी/57243 | मे. विजया क्लिनिकल लैबोरेटोरी एंड एक्स-रेस | 01.12.2004 |

| | | | |
|------|-------------------|---|------------|
| 156. | टीएन/एमडी/57110 | मे. आरती डोइव इन रेस्टोरंट | 01.08.2004 |
| 157. | टीएन/टीबीएम/60286 | मे. टी.एम.एक्स प्रेसिशन टूलिंग(इंडिया)प्रा.लि. | 01.01.2003 |
| 158. | टीएन/टीबीएम/60112 | मे. ग्लोबल आटोमेशन (पी) लि. | 01.08.2001 |
| 159. | टीएन/टीबीएम/60171 | मे.पी.कृष्णन-सिविल इंजीनियर्स कांस्ट्रक्टर | 01.03.2002 |
| 160. | टीएन/टीबीएम/60344 | मे. गेट्स युनिट्टा इंडिया कं.(पी) लि. | 01.12.2002 |
| 161. | टीएन/टीबीएम/60512 | मे. पीटर ब्लैक फूटवेर एंड एक्सेसरीस | 01.05.2004 |
| 162. | टीएन/एमडी/57829 | मे. एम.डी.एसपीएल.82, एंडपुली पी.डी.सी बैंक, एंडपुली -625601 | 01.11.2006 |
| 163. | टीएन/टीआई/55923 | मे. अरसन डीजल, टूटिकोरिन | 01.01.2007 |
| 164. | टीएन/टीआई/55859 | मे. द ओट्टपिडनुम तालुक को.ऑप.हारसिंग सोसाइटी लि, टूटिकोरिन | 01.08.2006 |
| 165. | टीएन/एमडी/57058 | मे. वेंकटेश्वर होटल, रामनाथपुरम | 01.05.2004 |
| 166. | टीएन/टीआई/55741 | मे.अरुलमिगु मगर नेदुकुलैकधार तिरुकोविल | 01.03.2006 |
| 167. | टीएन/एसएलएम/70528 | मे. अरुलमिगु पेरिया मरिअम्मन वकरिया तिरुकोविल, एरोड | 01.03.2007 |
| 168. | टीएन/एसएलएम/70530 | मे. अरुलमिगु संगमेश्वरर तिरुकोविल | 01.03.2007 |
| 169. | टीएन/एसएलएम/70525 | मे. अरुलमिगु तम्मिकलै अय्यनस्वामी तिरुकोविल | 01.01.2007 |
| 170. | टीएन/एसएलएम/70534 | मे. अरुलमिगु वेलयुतस्वामी तिरुकोविल, तिंडलमलै, एरोड | 01.01.2007 |
| 171. | टीएन/एमडी/57657 | मे. आर.के.17, विरुतुनगर डिस्ट्रिक्ट को. ऑप. युनियन "पसुमै इल्लम" विरुतुनगर | 01.02.2006 |
| 172. | टीएन/एमडी/57742 | मे.आनंदम पट्टु सेंटर, रामनाथपुरम | 01.06.2006 |
| 173. | टीएन/एमडी/57861 | मे. ए.डी.आर.प्लास्टिक्स, मदुरै | 01.02.2007 |
| 174. | टीएन/एमडी/57740 | मे. आनंदम टेक्सटाइल्स, रामनाथपुरम | 01.06.2006 |
| 175. | टीएन/एमडी/57741 | मे. आनंदम रेडीमेड्स, रामनाथपुरम | 01.06.2006 |
| 176. | टीएन/एमडी/57803 | मे. क्यू-360, देवकोट्टै म्युनिसिपल सुपी-रियर एम्प्लाइस एंड टीचर्स को.ऑप थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि, शिवगंगै | 01.09.2006 |
| 177. | टीएन/सीबीई/73026 | मे. अरुलमिगु वलय तोटतु अय्यन टेम्पल सामालपुरम, कोयंबतूर | 01.03.2007 |
| 178. | टीएन/एएमबी/66177 | मे. दिव्येश इंजीनियरिंग वर्क्स, चेन्नै | 01.08.2006 |
| 179. | टीएन/एएमबी/66256 | मे. केएमए आटो कॉम्पोनेंट्स प्रा.लि, चेन्नै | 01.08.2006 |
| 180. | टीएन/एएमबी/66330 | मे.एम.जी.ट्राइडेंट टूलांग इंडिया(पी)लि, चेन्नै | 01.09.2006 |
| 181. | टीएन/वीएल/74225 | मे. पावुपट्टु विलेज, वेल्लूर | 01.10.2006 |
| 182. | टीएन/वीएल/74209 | मे. पलयनूर पोस्ट, वेल्लूर | 01.10.2006 |
| 183. | टीएन/वीएल/74236 | मे. टी.कल्लेरी प्राइमरी एग्रिकल्चरल को. ऑप बैंक, वेल्लूर | 01.01.2007 |
| 184. | टीएन/वीएल/74228 | मे. विलंगकुप्पम मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी, वेल्लूर | 01.12.2006 |

| | | | |
|------|-------------------|---|------------|
| 185. | टीएन/वीएल/74234 | मे.पाचाल मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी वेल्लूर | 01.01.2007 |
| 186. | टीएन/वीएल/74229 | सोसाइटी, वेल्लूर | 01.12.2006 |
| 187. | टीएन/एमडी/57850 | मे. आर.जी.प्लास्टिक्स, मदुरै | 01.12.2006 |
| 188. | टीएन/टीआई/55740 | मे. वडमलै विनायगार टेम्पल, तिरुचेंदूर तालुका | 01.03.2006 |
| 189. | टीएन/टीआई/55700 | मे. अरुलमिगु अंतिनाथर अलवार तिरुकोइल, अलवारतिरुनगरी | 01.03.2006 |
| 190. | टीएन/टीआई/55728 | मे.शंकर रामेश्वरर टेम्पल, टूटिकोरिन | 01.03.2006 |
| 191. | टीएन/टीआई/55766 | मे. अरुलमिगु वैगुंडपति तिरुकोइल, टूटिकोरिन | 01.03.2006 |
| 192. | टीएन/टीआई/55767 | मे. अरुलमिगु संतानमनिअम्मन तिरुकोइल, टूटिकोरिन | 01.03.2006 |
| 193. | टीएन/एसएलएम/70618 | मे. एस.2123 मरंदहल्ली प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप. बैंक, पालाकांड | 01.04.2007 |
| 194. | टीएन/एसएलएम/70619 | मे. एस.421 चेन्नसमुदिरम प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप बैंक, चेन्नसमुदिरम पोस्ट | 01.05.2007 |
| 195. | टीएन/एसएलएम/70617 | मे. एस.422 नेदुमारुदि प्राइमरी एग्रिकल्चरल | 01.05.2007 |
| 196. | टीएन/टीआर/44234 | मे. भारत पेवर्स, माथुर | 10.06.2004 |
| 197. | टीएन/टीआर/43658 | मे. प्रसाद एक्सपोर्टर्स, कामराजपुरम, करूर | 01.01.2006 |
| 198. | टीएन/एमबी/66353 | मे. सदरन लॉजिस्टिक्स प्रा.लि.अन्नानगर, चेन्नै | 01.02.2007 |
| 199. | टीएन/वीएल/74260 | मे. क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी | 01.02.2007 |
| 200. | टीएन/वीएल/74259 | मे. तिरुपत्तूर सर्कल प्राइमरी एग्रिकल्चरल को. ऑप.एम्प्लॉईस थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, चेन्नै | 01.02.2007 |
| 201. | टीएन/एमबी/66049 | मे.अरुलमिगु सोम्या दामोदर पेरुमल टेम्पल, चेन्नै | 01.03.2006 |
| 202. | टीएन/एमबी/66052 | मे.अरुलमिगु ओम श्रीसरसिद्धि सुंदर विनायगार टेम्पल, आवडी, चेन्नै | 01.03.2006 |
| 203. | टीएन/एमबी/66338 | मे. वोलटेक ट्रांसफॉर्मर्स प्रा.लि, चेन्नै | 01.09.2006 |
| 204. | टीएन/एमडी/57802 | मे. एम.डी.एसपीएल.50, सिलवरपट्टी पीएसी बैंक, सिलवरपट्टी | 01.09.2006 |
| 205. | टीएन/एमडी/57126 | मे. एमडी(एसपीएल)185, कुम्बम को.ऑप.हाउसिंग | 01.09.2004 |
| 206. | टीएन/सीबीई/73072 | मे.जय ट्रेडर्स, पोल्लाची रोड, उडुमलपेट | 01.03.2007 |
| 207. | टीएन/एसएलएम/70626 | मे.अरुलमिगु वीरकुमारस्वामी तिरुकोइल, वेल्लकोइल | 01.04.2007 |
| 208. | टीएन/एसएलएम/70696 | मे.के.के.55, चित्रकोत्तूर पी.ए.सी.बी.गंगोजीकोत्तूर | 01.05.2007 |
| 209. | टीएन/एसएलएम/70547 | मे.अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी तिरुकोविलशिवनमलै कंगयम तालुक | 01.03.2007 |
| 210. | टीएन/एसएलएम/70561 | मे. अरुलमिगु कोट्टै मरिअम्मन टेम्पल, सेलम | 01.03.2007 |
| 211. | टीएन/एसएलएम/70535 | मे.अरुलमिगु कौंडत्तुकलिअम्मन तिरुकोविल पन्नारी, गोबी | 01.01.2007 |
| 212. | टीएन/एसएलएम/70546 | मे.अरुलमिगु कौंगलम्मन तिरुकोविल, एरोड टाउन | 01.03.2007 |
| 213. | टीएन/एसएलएम/70529 | मे.अरुलमिगु मगुडेश्वरर एंड वीरनारायण पेरुमल तिरुकोइल, कोडुमुडि | 01.01.2007 |

| | | | |
|------|--------------------|---|------------|
| 214. | टीएन/एसएलएम/70681 | मे.अरुलमिगु भद्रकालिअम्मन टेम्पल, मेचेरी | 01.04.2007 |
| 215. | टीएन/एसएलएम/70680 | मे.अरुलमिगु प्रसन्न वेंकटचलपति एंड मरिअम्मन टेम्पल, शिवापेट, सेलम | 01.04.2007 |
| 216. | टीएन/एसएलएम/70523 | मे.अरुलमिगु बन्नारी मरिअम्मन तिरुकोविल, बन्नारी | 01.01.2007 |
| 217. | टीएन/टीआर/44243 | मे.एटीएमआरसीएम वासवी विद्यालय मैट्रिकुलेशन स्कूल, तिरुचिरपल्ली | 01.06.2004 |
| 218. | टीएन/टीआर/44934 | मे. अरुलमिगु कल्याण वेंकटरमणस्वामी टेम्पल, करूर | 01.03.2006 |
| 219. | टीएन/वीएल/74119 | मे. अरुलमिगु उलगलांत पेरुमाल तिरुकोविल, कांचीपुरम | 01.03.2006 |
| 220. | टीएन/वीएल/74122 | मे.अरुलमिगु एकांबरनाथर तिरुकोविल, कांचीपुरम | 01.03.2006 |
| 221. | टीएन/वीएल/74138 | मे.अरुलमिगु देवराजस्वामी तिरुकोविल, कांचीपुरम | 01.03.2006 |
| 222. | टीएन/वीएल/74152 | मे.अरुलमिगु कच्छपेश्वरर स्वामी तिरुकोविल, कांचीपुरम | 01.05.2006 |
| 223. | टीएन/वीएल/74192 | मे.वौडिकुडिसाई मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप. सोसाइटी, वेल्लेरी पीओ आरणी तालुक | 01.08.2006 |
| 224. | टीएन/वीएल/74197 | मे.वेट्टिटयंतोलुवम मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप. सोसाइटी, आरणी तालुक | 01.09.2006 |
| 225. | टीएन/वीएल/74198 | मे.रामचंद्रापुरम वुमेन्स मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप. सोसाइटी, आरणी तालुक | 01.09.2006 |
| 226. | टीएन/वीएल/74233 | मे.वडक्कुमेडु मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप. सोसाइटी वडक्कुमेडु, पनयुर पीओ, आरणी तालुक | 01.12.2006 |
| 227. | टीएन/वीएल/74245 | मे.देविकापुरम को.ऑप. स्टोर्स लि., देविकापुरम, आरणी तालुक | 01.01.2007 |
| 228. | टीएन/60812 | मे.वोरटेक्स इंजीनियरिंग प्रा.लि, चेन्नै | 01.09.2005 |
| 229. | टीएन/60248 | मे. ईजहिल इंजीनियरिंग, चेन्नै | 01.09.2002 |
| 230. | टीएन/60357 | मे. श्रीवारी इंडस्ट्रीज, चेन्नै | 01.04.2003 |
| 231. | टीएन/60216 | मे. श्रीवारी इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., चेन्नै | 01.07.2002 |
| 232. | टीएन/61154 | मे. श्री बाबा इंजीनियरिंग कं., चेन्नै | 01.07.2006 |
| 233. | आप्र/47704 | मे. जनहर्षा पब्लिशर्स प्रा.लि, सिकंदराबाद | 06.08.2004 |
| 234. | आप्र/52394 | मे. युबीएस सर्विस सेंटर(आई) प्रा.लि., राजेंद्रनगर आर आर डिस्ट्रिक्ट | 01.11.2005 |
| 235. | आप्र/56078 | मे. एओसी सेंटर युनिट रन कैटीन, सिकंदराबाद | 06.12.2006 |
| 236. | आप्र/आरजेवाई/46926 | मे.कमलप्रिया एग्रो एंड जनरल एजन्सीस, काकिनाडा | 03.11.2006 |
| 237. | आप्र/52350 | मे. आइडियावर्क्स टेक्नालॉजी इंडिया प्रा. लि, सिकंदराबाद | 01.11.2005 |
| 238. | आप्र/53796 | मे. हेकॉन एक्विपमेंट्स, हैदराबाद | 01.05.2006 |
| 239. | आप्र/वरंगल/44993 | मे.पोतना पुरुषुल पोदुपु समिति, पंतिनी, वरंगल जिला | 01.01.2005 |
| 240. | आप्र/वरंगल/44994 | मे.रुद्रमादेवी महिला परस्पर सहायक सहकार पोदुपु परपाटी संगम लि, जनगाँव, वरंगल जिला | 01.02.2005 |

| | | | |
|------|------------------|---|------------|
| 241. | आप्र/वरंगल/44995 | मे. द जनगाँव सेंद्रल वेरहाउस हमाली को.ऑप लेबर कांट्राक्ट सोसाइटी लि, जनगाँव, वरंगल जिला | 01.04.2005 |
| 242. | आप्र/वरंगल/45000 | मे. भारतीय पुरुषुल पोदुपु समिति | 01.01.2005 |
| 243. | आप्र/वरंगल/50603 | मे. सरस्वती महिला पोदुपु को.ऑप सोसाइटी | 01.06.2005 |
| 244. | आप्र/वरंगल/50611 | मे. प्रतापरुद्र पुरुषुल पोदुपु समिति, कोंडपति, वरंगल | 01.07.2005 |
| 245. | आप्र/वरंगल/50635 | मे. रानी रुद्रमादेवी महिला पोदुपु समिति, मोगमपुरम वरंगल जिला | 01.07.2005 |
| 246. | आप्र/वरंगल/50760 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप सोसाइटी लि. | 01.10.2006 |
| 247. | आप्र/वरंगल/50798 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी कंदुकूरु, खम्मम जिला | 01.04.2006 |
| 248. | आप्र/वरंगल/50799 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लच्चन्नगूडेम, खम्मम जिला | 01.04.2006 |
| 249. | आप्र/वरंगल/50800 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, भरणीपाडु, खम्मम जिला | 01.04.2006 |
| 250. | आप्र/वरंगल/50801 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, अम्मपालेम, खम्मम जिला | 01.10.2006 |
| 251. | आप्र/वरंगल/50802 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, नारायणपुरम, खम्मम जिला | 01.04.2006 |
| 252. | आप्र/वरंगल/50814 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, किष्टारम, खम्मम जिला | 01.04.2006 |
| 253. | आप्र/वरंगल/50815 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, रविनूतल, खम्मम जिला | 01.11.2006 |
| 254. | आप्र/वरंगल/50816 | मे.द लार्ज साइज्ड को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, दम्मापेटा, खम्मम जिला | 01.04.2006 |
| 255. | आप्र/वरंगल/50817 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी रघुनाथपालेम, खम्मम जिला | 01.11.2006 |
| 256. | आप्र/वरंगल/50818 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, सिद्दिनेनिगूडेम, खम्मम जिला | 01.11.2006 |
| 257. | आप्र/वरंगल/50819 | मे.द फार्मर्स सर्विस को.ऑप सोसाइटी लि, मधिरा, खम्मम जिला | 01.11.2006 |
| 258. | आप्र/वरंगल/50820 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, मोटमरी, खम्मम जिला | 01.11.2006 |
| 259. | आप्र/वरंगल/50821 | मे.प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, देंडुकूर, खम्मम जिला | 01.11.2006 |
| 260. | आप्र/कडपा/54681 | मे.बेलडोनी प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी, बेलडोना, कर्नूल जिला | 01.02.2007 |
| 261. | आप्र/53673 | मे. श्रेयन्स वायर्स एंड केबल्स (पी) लि, चैलपल्ली, हैदराबाद | 01.08.2006 |
| 262. | आप्र/56481 | मे. वेंकटेश्वरा एग्रोवेट सर्विसेस (पी) लि, सैनिकपुरी x रोड, सिकंदराबाद | 09.03.2007 |

| | | | |
|------|--------------------|--|------------|
| 263. | आप्र/56589 | मे. ब्लू होराइजन एयर चार्टर सर्विसेस प्रा.लि, डिस्टिलरी रोड, सिकंदराबाद | 01.05.2007 |
| 264. | आप्र/56647 | मे. एपीपी सिस्टम्स (इंडिया) प्र.लि,चेर्लपल्ली, हैदराबाद | 01.06.2007 |
| 265. | आप्र/56703 | आर्य हाई स्कूल, चादरघाट, हैदराबाद | 01.07.2007 |
| 266. | आप्र/वरंगल/50748 | मे.राहुल दलित सेबर कांटाक्ट परस्पर सहायक सहकार संगम लि, हनमकोंडा, वरंगल जिला | 01.09.2006 |
| 267. | आप्र/वरंगल/50750 | मे.फार्मर्स सर्विस को.ऑप सोसाइटी लि,मंगापेटा वरंगल जिला | 01.01.2006 |
| 268. | आप्र/वरंगल/50780 | मे. प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप सोसाइटी लि, नचिनपल्ली, वरंगल जिला | 01.01.2007 |
| 269. | आप्र/वरंगल/50788 | मे. प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप सोसाइटी लि नेल्लिकुदुरु, वरंगल जिला | 01.01.2007 |
| 270. | आप्र/वरंगल/50789 | मे. प्राइमरी एग्रिकल्चरल को.ऑप सोसाइटी लि दुग्गोंडी, वरंगल जिला | 01.01.2007 |
| 271. | आप्र/वरंगल/50793 | मे. मत्तेवाडा दलित मुनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनि- टरी एंड सिविल वर्क्स लेबरकांटाक्ट पीएसएसएस लि, मत्तेवाडा, वरंगल | 01.12.2006 |
| 272. | आप्र/वरंगल/50832 | मे. मारुति सक्थुरिटी गाड्स सर्विसेस एंड प्लेस- मेंट एजन्सी, एम.जी.रोड, वरंगल | 01.04.2007 |
| 273. | आप्र/वरंगल/50833 | मे. विजय सेक्थुरिटी सर्विसेस, जे.पी.एन.रोड, वरंगल | 01.04.2007 |
| 274. | आप्र/आरजेवाई/46956 | मे. मोय्येरु पीएसीएस,गणपवरम मंडल,प.गो.जिला | 01.03.2007 |
| 275. | आप्र/आरजेवाई/46957 | मे. गौरीपटणम पीएसीएस लि, देवरपल्ली मंडल, प.गो. जिला | 01.03.2007 |
| 276. | आप्र/आरजेवाई/46980 | मे. पेनुमंत्रा लार्ज साइज्ड को-ऑप. क्रेडिट सोसाइटी लि, पेनुमंत्रा, प.गो.जिला | 01.03.2007 |
| 277. | केएन/बीजीएल/42272 | मे.मेंजीस एवियेशन बोम्बा(बेंगलूर) प्रा.लि, बेंगलूर | 02.05.2007 |
| 278. | केएन/बीजीएल/42225 | मे.एंड एस्ट्रा कंसल्टेंट्स (पी) लि, बेंगलूर | 01.03.2007 |
| 279. | केएन/बीजीएल/42408 | मे.एनओके एयरलाइन्स कंपनी लि, बेंगलूर | 01.06.2007 |
| 280. | केएन/एमएनजी/38504 | मे.कद्री श्री मंजुनाथेश्वर टेंपल, कद्री, मंगलूर | 01.06.2007 |
| 281. | केएन/बीजीएल/42315 | मे.श्री साई एंटरप्राइजेस, बेंगलूर | 01.04.2007 |
| 282. | केएन/एचबीएल/40055 | मे.श्रीबसवेश्वर अर्बन को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, मुदलगी | 01.09.2005 |
| 283. | केएन/एचबीएल/27711 | मे.द बेलगाम कंज्युमर्स को.ऑप होलसेल स्टोर्स लि, बेलगाम | 01.10.2004 |
| 284. | केएन/एचबीएल/27826 | मे.श्री महालक्ष्मी अर्बन को.ऑप क्रेडिट बैंक लि, गोकाक | 01.02.2005 |
| 285. | केएन/एचबीएल/40034 | मे.श्री बसवेश्वर अर्बन को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, इलल्लूर | 01.10.2005 |

| | | | |
|------|-------------------|--|------------|
| 286. | केएन/एचबीएल/27543 | मे.श्री भाग्यलक्ष्मी को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, घटप्रभा | 01.04.2004 |
| 287. | केएन/एचबीएल/27114 | मे.चुंचनूर कृषि सहकारी बैंक नियामित, चुंचनूर | 01.10.2001 |
| 288. | केएन/एचबीएल/40052 | मे.अंबडगट्टी प्राथमिक कृषि पट्टिन को.ऑप बैंक लि, अंबडगट्टी | 08.11.2005 |
| 289. | केएन/एचबीएल/40033 | मे.द अमरनाथ को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी (एन) गोकक | 01.10.2005 |
| 290. | केएन/एचबीएल/40194 | मे.चैतन्या अर्बन को.ऑप. क्रेडिट सोसाइटी लि, मुदलगी | 01.10.2006 |
| 291. | केएन/एचबीएल/40101 | मे.प्राथमिक कृषि पट्टिन सहकारी बैंक नियामित इलचिनाल | 07.10.2005 |
| 292. | केएन/मैसूर/36669 | मे.सिद्धेहन कोप्पलु एमपीसीएस लि, कोतिथी(एच) | 01.06.2006 |
| 293. | केएन/मैसूर/36550 | मे.वी एस एस एन बैंक नियामित, मुत्तनहल्ली | 01.11.2005 |
| 294. | केएन/पीन्या/30566 | मे.बसवेश्वरनगर को-ऑप. क्रेडिट सोसाइटी लि, बेंगलूर | 01.10.2007 |
| 295. | केएन/मैसूर/36875 | मे.बिलिकेरे व्यवसाय सेवा सहकार बैंक नियामित, बिलिकेरे | 01.09.2007 |
| 296. | केएन/बीजीएल/42394 | मे.सुजान इनफोटेक, बेंगलूर | 01.06.2007 |
| 297. | केएन/बीजीएल/42383 | मे.पेस माइक्रो टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर | 01.06.2007 |
| 298. | केएन/पीन्या/30561 | मे.श्री गायत्री क्रेडिट को-ऑप.सोसाइटी लि,दुमकूर | 01.09.2007 |
| 299. | केएन/एचबीएल/40341 | मे.जगद्गुरु रेणुकाचार्य को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी, हुबली | 01.01.2007 |
| 300. | केएन/एचबीएल/40442 | मे.डॉ.सी.फर्नांडिस को-ऑप. क्रेडिट सोसाइटी लि, होन्नावर | 01.07.2007 |
| 301. | केएन/बीजीएल/42480 | मे.ट्रैको सॉफ्टवेयर प्रा.लि, बेंगलूर | 01.07.2007 |
| 302. | केएन/एमएनजी/38563 | मे.कडिपट्टा नडिपट्टा विद्या प्रचारक संघ, पडुबिद्री | 01.09.2007 |
| 303. | केएन/पीन्या/30396 | मे.सिरा तालुक श्री कनक क्रेडिट को-ऑप.सोसाइटी आर, सिरा | 01.06.2007 |
| 304. | केएन/बीजीएल/42477 | मे.तल्लम वेंचर्स, बेंगलूर | 01.07.2007 |
| 305. | केएन/एमएनजी/38332 | मे.सुमंगल क्रेडिट को-ऑप. सोसाइटी लि,पनेमंगलूर | 01.12.2005 |
| 306. | केएन/एमएनजी/38204 | मे.कीर्तेश एंटरप्राइजेस,मंगलूर | 01.01.2005 |
| 307. | केएन/बीजीएल/42235 | मे.दिसा टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि, बेंगलूर | 01.03.2007 |
| 308. | केएन/बीजीएल/42350 | मे.वैष्णवी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि, बेंगलूर | 01.05.2007 |
| 309. | केएन/एमएनजी/38136 | मे.श्री गणेश वाइडर्स, मंगलूर | 01.08.2004 |
| 310. | केएन/बीजीएल/42373 | मे.टस्कर लीगल एंड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्रा. लि, बेंगलूर | 01.06.2007 |
| 311. | केएन/सीकेआर/37264 | मे.बेलूर अर्बन को-ऑप.बैंक लि, बेलूर | 01.03.2007 |
| 312. | केएन/पीन्या/30387 | मे.रायकर मेटल इंडस्ट्रीस, बेंगलूर | 01.06.2007 |
| 313. | केएन/बीजीएल/30388 | मे.एसर मशीन टूल्स प्रा.लि, बेंगलूर | 01.06.2007 |
| 314. | टीएन/66360 | मे.एक्सपर्ट कैड(इंडिया) प्रा.लि, चेन्नै | 01.03.2007 |

| | | | |
|------|-------------------|---|------------|
| 315. | टीएन/66365 | मे.डिबस टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स प्रा.लि, चेन्नै | 01.03.2007 |
| 316. | टीएन/वीआई/74011 | मे.पूनगुलम प्राइमरी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक लि, चेन्नै | 01.05.2005 |
| 317. | टीएन/सीबीई/73082 | मे.अरुलमिगु मरिअम्मन तिरुकोइल, करुवलूर | 01.03.2007 |
| 318. | टीएन/सीबीई/73065 | मे.अरुलमिगु दंडु मरिअम्मन टेम्पल, अविनाशी रोड, कोयंबतूर | 01.03.2007 |
| 319. | टीएन/सीबीई/73058 | मे.अरुलमिगु लक्ष्मी नरसिम्हस्वामी तिरुकोविल, उक्कडम, कोयंबतूर | 01.03.2007 |
| 320. | टीएन/सीबीई/730 | मे.अरुलमिगु विनायकार तिरुकोइल, पोलाची मेन रोड, कोयंबतूर | 01.03.2007 |
| 321. | टीएन/सेलम/70587 | मे.अरुलमिगु अर्थनारीश्वरर टेम्पल, तिरुचेंगोड | 01.04.2007 |
| 322. | टीएन/सेलम/70701 | मे.अरुलमिगु नरसिम्हस्वामी तिरुकोविल, नमक्कल | 01.04.2007 |
| 323. | टीएन/सेलम/70652 | मे.अरुलमिगु कुमारगिरि तंडपाणिस्वामी टेम्पल, सेलम | 01.04.2007 |
| 324. | टीएन/सेलम/70664 | मे.अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी तिरुकोविल, चूत्रियमलै | 01.04.2007 |
| 325. | टीएन/सेलम/70715 | मे.अरुलमिगु भद्रकालिअम्मन तिरुकोविल, वेलियमपाटी | 01.06.2007 |
| 326. | टीएन/सीबीई/73099 | मे.अरुलमिगु मदुरै वीरन मुनिअप्पासामी टेम्पल, उडुमलपेट | 01.04.2007 |
| 327. | टीएन/सीबीई/73186 | मे.अरुलमिगु करि वरतराज पेरुमाल तिरुकोइल, पोलाची | 01.04.2007 |
| 328. | टीएन/सीबीई/73111 | मे.अरुलमिगु मुतलम्मन तिरुकोइल, पुलनकिनर, उडुमलपेट | 01.04.2007 |
| 329. | टीएन/सीबीई/73098 | मे.अरुलमिगु प्रसन्न विनायगार टेम्पल, उडुमलपेट | 01.04.2007 |
| 330. | टीएन/सीबीई/73430 | मे.अरुलमिगु कौंडतु कालिअम्मन उत्तम लिंगेश्वरर आतिकेशवे पेरुमाल तिरुकोइल, पेरुमनल्लूर, तिरुपुर | 01.08.2007 |
| 331. | टीएन/सीबीई/73342 | मे.अरुलमिगु अविनाशी लिंगेश्वरर टेम्पल, अविनाशी | 01.06.2007 |
| 332. | टीएन/सेलम/70674 | मे.अरुलमिगु वरतराजपेरुमाल वकाइयार तिरुकोइल, वेंगम्बूर | 01.04.2007 |
| 333. | टीएन/त्रिची/44804 | मे.प्युअर एण्ड प्युअर एक्वा फुड्स, त्रिची | 01.09.2006 |
| 334. | टीएन/त्रिची/43571 | मे.रॉकसिटी सीएनसी पॉइंट, तुवाडी, त्रिची | 01.03.2000 |
| 335. | टीएन/त्रिची/44804 | मे.मिलान, कुंबकोणम | 01.03.2000 |
| 336. | टीएन/त्रिची/44920 | मे.अरुलमिगु स्वामीनाथस्वामी टेम्पल, स्वामीमलै | 01.03.2006 |
| 337. | टीएन/त्रिची/44870 | मे.अरुलमिगु तयुमानस्वामी तिरुकोविल, रॉकफोर्ट, त्रिची | 01.03.2006 |
| 338. | टीएन/त्रिची/44953 | मे.रंगनाथस्वामी टेम्पल, श्रीरंगम, त्रिची | 01.03.2006 |
| 339. | टीएन/त्रिची/44996 | मे.अरुलमिगु जंबुगेश्वरर अखिलांडेश्वरी तिरुकोइल त्रिची | 01.03.2006 |
| 340. | टीएन/त्रिची/76015 | मे.अरुलमिगु मरिअम्मन टेम्पल, समयापुरम पोस्ट | 01.03.2006 |
| 341. | टीएन/त्रिची/44729 | मे.पुदुकोट्टई जिला को.ऑप डिमार्टमेंटल स्टाफ को-ऑप थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सो, पुदुकोट्टई | 01.03.2006 |
| 342. | टीएन/त्रिची/44597 | मे.मलैकुडिपट्टी पीएसीबी लि, मलैकुडिपट्टी | 01.07.2005 |

| | | | |
|------|-------------------|---|------------|
| 343. | टीएन/एमडी/57784 | मे.क्यु.667 देवकोट्टई म्युनिसिपल मीनियल एम्प्लॉईस शिफ्ट एंड क्रेडिट सो., देवकोट्टई | 01.08.2006 |
| 344. | टीएन/एमडी/57882 | मे.ए 2903 बदलगुंडु पंचायत युनियन ऑल गवर्न-मेंट हायर/हायर सेकंडरी स्कूल एम्प्लॉईस को-ऑप शिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि, बदलगुंडु | 01.04.2007 |
| 345. | टीएन/एमडी/57881 | मे.ए 2537 बदलगुंडु पंचायत एम्प्लॉईस को-ऑप शिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि, बदलगुंडु | 01.04.2007 |
| 346. | टीएन/एमडी/57136 | मे.आर.एस.830 शिवगंगा जिला पुलिस डिपार्ट-मेंट को-ऑप शिफ्ट एंड क्रेडिट सो.लि.शिवगंगा | 01.09.2004 |
| 347. | टीएन/एमडी/57783 | मे.आर.डी.143, श्री कदेरी अंबल मिल एम्प्लॉईस को-ऑप शिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि., शण्मुगनाथपुरम, देवकोट्टई | 01.08.2006 |
| 348. | टीएन/एमडी/57896 | मे.एम.एस.1366, पुलिया मरतुसेत मिल्क प्रोड्यु-सर्स को-ऑप सोसाइटी, पुलियमरतुसेत | 01.05.2007 |
| 349. | टीएन/एमडी/57895 | मे.एम.एस.417, अय्यमपालयम मिल्क प्रोड्युसर्स को-ऑप. सोसाइटी, अय्यमपालयम | 01.05.2007 |
| 350. | टीएन/एमडी/57884 | मे.एम.एस.386, ओडयपट्टी मिल्क प्रोड्युसर्स को-ऑप. सोसाइटी, ओडयपट्टी | 01.05.2007 |
| 351. | टीएन/एमडी/57883 | मे.एम.एस.224, पप्पमपट्टी मिल्क प्रोड्युसर्स को-ऑप. सोसाइटी, पप्पमपट्टी | 01.05.2007 |
| 352. | टीएन/एमडी/57651 | मे.अरुलभिगु श्रीनिवास पेरुमाल तिरुकोइल, मलैदिवरम | 01.03.2006 |
| 353. | टीएन/एमडी/42746 | मे.आर.ए.361, अरुपुकोट्टई पीएसी बैंक, अरुपुकोट्टई | 01.07.2002 |
| 354. | टीएन/टीआई/75154 | मे.टीएन एसपरएल87 पिल्लैयरनथम प्राइमरी एग्री-कल्चरल को-ऑप बैंक, शंकरनकोइल | 01.10.2006 |
| 355. | टीएन/वीएल/74401 | मे.पोगाई पीएसीबी, वेल्लूर | 01.06.2007 |
| 356. | टीएन/वीएल/74343 | मे.कन्नमंगलम पीएसीबी, वेल्लूर | 01.06.2007 |
| 357. | टीएन/एमबी/66445 | मे.जया कैब्स, अंबत्तूर | 01.02.2007 |
| 358. | टीएन/एमबी/66490 | मे.श्री हरिकृष्णा इंडस्ट्रीस, अंबत्तूर | 01.05.2007 |
| 359. | टीएन/एमबी/66446 | मे.वन क्लिक सोल्युशन्स (पी) लि, अंबत्तूर | 01.05.2007 |
| 360. | टीएन/एमबी/66476 | मे.मेरक्युरी बिजनेस सोल्युशन्स, अंबत्तूर | 01.06.2007 |
| 361. | टीएन/वीएल/74338 | मे.इसुकषिकट्टेरी पीएसीबी, वेल्लूर | 01.06.2007 |
| 362. | केआर/केटीएम/20329 | मे.जन शिक्षण संस्थान इडुवकी, केरला | 01.01.2007 |
| 363. | केआर/केसी/21870 | मे.कलियाथ टाइल्स, त्रिशूर | 01.05.2007 |
| 364. | केआर/केसी/21711 | मे.वैद्यरत्नम आयुर्वेद फाउंडेशन, त्रिशूर जिला | 01.01.2007 |
| 365. | केआर/केसी/21710 | मे.पुष्कल डेवलपर्स प्रा.लि, त्रिशूर | 08.02.2007 |
| 366. | केआर/केके/23365 | मे.लक्ष्मी टूल्स, पालक्काड़ | 01.08.2007 |
| 367. | केआर/टीवीएम/22109 | मे.सेक्विटर आईटी सर्विसेस, त्रिवेंद्रम | 01.07.2005 |
| 368. | केआर/केसी/21833 | मे.जे.पी.होटल एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, त्रिशूर | 01.04.2007 |

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 1 के उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम के उपबंधों का ऊपर उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के नाम के प्रति उल्लिखित तारीख से लागू करते हैं।

यू. सी. तिवारी
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त (द. अ.)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2008

संख्या: एन-15/13/10/2/2003-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जून, 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“जाजपुर ज़िला के सुकिन्दा तहसील में बारगाडिया, सारंगपुर, गोडीगोट, नुआगाँ, गोलागाँ, खुरुंटी, मानगोविन्दपुर, गाडपुर, मंगलपुर, जखपुरा, राबणा, कचेरीगाँ, दशमाणिया के राजस्व गाँव।”

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/4/2007-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जून, 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश में रंगारेड्डी ज़िले के मेड्चल मण्डल में स्थित रायलकोल, किश्तापूर एवं पूडूर तथा शामीरपेट मण्डल में स्थित देवरयांजाल राजस्व गाँव के सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र ”

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2008

संख्या : यू.16/53/1/2005 चि.2 केरल : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (केरल) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम**अवधि****केन्द्र का नाम**

डॉ.के.मोहम्मद

1.2.2008 से 31.1.2009

कोजीकोड

(डॉ.) कमलेश कालरा

चिकित्सा आयुक्त

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2007

सं.भा.आ.प.-आई.एम.आर./27923-24-25.--भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(56 का 102) की धारा 21 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् एक रजिस्टर का अनुरक्षण करती है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर कहा जाता है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जिन्होंने अधिनियम के तहत किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर में अपना नामांकन कराया हो तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है।

अतएव, एतद्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को निर्देश दिया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (56 का 102) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण हेतु वर्ष 2004 के भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर के परिशिष्ट को सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लेफ्टि. क.(डॉ) ए.आर. एन. सीतलवाड
सचिव

STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400 021, the 23rd June 2008

With reference to the Notice dated the 6th June, 2008 containing the names and addresses of the validly nominated candidates contesting for the election for the four vacancies of Directors on the Central Board under Section 19 (c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following candidates have been duly declared elected as Directors on the Bank's Central Board in the election held at the General Meeting of the Shareholders of the Bank on the 23rd June 2008 in the Bank's Auditorium, behind State Bank of India, Madame Cama Road Branch, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai 400 021 (Maharashtra).

1. Dr. Ashok Jhunjhunwala
C 2/2, 5 Third Loop Road
IIT Madras
CHENNAI 600 036
2. Shri Suman Kumar Bery
N-42, Panchshila Park
NEW DELHI 110 017
3. Shri Dileep C. Choksi
E-7, Sea Face Park
50, Bhulabhai Desai Road
MUMBAI 400 026
4. Shri S. Venkatachalam
Building B-1
Flat 1-D (First Floor)
Harbour Heights
NA Sawant Marg, Colaba
MUMBAI 400 005

S. K. BHATTACHARYYA
Managing Director & CCRO

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Hyderabad, the 15th May 2008

No. EPFO/ACC/SZ/GL-240A/Notifn. of 1(4)/2008/111— Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

| <i>Sl. No.</i> | <i>Code No.</i> | <i>Name of the Establishment</i> | <i>Date of Coverage & Consent</i> |
|----------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | KR/KNR/18427 | M/s Cannanore S.C.Press Worker's Ind. Co-op. Society, Kannur | 01.04.2007 |
| 2 | KR/KC/21617 | M/s Suni Color Spot, Alleppey | 01.01.2007 |
| 3 | KR/KC/21647 | M/s Jan Shikshan Sansthan, Ernakulam | 01.12.2006 |
| 4 | KR/TVM/22410 | M/s Schogini Systems, PTP Nagar, Trivandrum | 01.12.2006 |
| 5 | KR/KK/23105 | M/s Zindagri Travels, Palakkad | 01.02.2006 |
| 6 | KR/KK/23302 | M/s Kollengode Merchants Co.op Society Ltd, Palakkad | 01.03.2007 |
| 7 | KR/KC/21727 | M/s Lisieux College, Trichur | 05.03.2007 |
| 8 | KR/KC/21619 | M/s Gor Medical Gas Equipment (P) Ltd, Kakkanad. | 01.01.2007 |
| 9 | KR/KC/21534 | M/s West Bakes Ovens (P) Ltd, SA Road, Kochi. | 01.07.2006 |
| 10 | KR/KC/21697 | M/s Cheruvaranam Coir Mats & Matting Co-op. Society Ltd, Cherthala. | 01.03.2007 |
| 11 | KR/KK/23216 | M/s ICEE PEE Gas Agency, Palakkad. | 01.10.2006 |
| 12 | KR/KK/23062 | M/s Irshad English School, Malappuram Dist. | 01.11.2005 |
| 13 | KR/KK/23170 | M/s Mices Public School, Malappuram Dist. | 01.07.2006 |
| 14 | KR/KNR/18266 | M/s Agreeen Hashco Pvt. Ltd, Pallikkunnu. | 01.10.2004 |
| 15 | KN/BN/42029 | M/s.Vaishnavi Controls and Acoustic, Bangalore, | 01.01.2007 |
| 16 | KN/BN/41984 | M/s.Abraham Memorial Trust, Bangalore, | 11.01.2006 |
| 17 | KN/BLR/28348 | M/s.Sandur Pattana Souharda Sahakari Bank Niyamitha, Bellary, | 07.01.2006 |
| 18 | KN/BLR/28341 | M/s.Rajeev Gandhi Institute for Steel Technology, Bellary, | 05.01.2006 |
| 19 | KN/BN/41992 | M/s.Karnatakaa Veerashaiva Vidyabhivrudhi Samsthe, Bangalore, | 11.01.2006 |
| 20 | KN/BLR/28349 | M/s.Sri Gangadhareshwar Souharda Pattina Sah Niyamit, Koppal, | 07.01.2006 |
| 21 | KN/BLR/28376 | M/s.Tavaragera Pattan Souharda Sanakari Bank Niyamitha,Koppal, | 12.01.2006 |
| 22 | KN/BN/41954 | M/s.Cambridge Public School, Bangalore, | 10.01.2006 |

| | | | |
|----|--------------|---|------------|
| 23 | KN/41882 | M/s.Orchid Travels & Towers, Bangalore, | 09.01.2006 |
| 24 | KN/BN/42055 | M/s.IDG Ventures India Advisors Pvt. Ltd., Bangalore, | 12.01.2006 |
| 25 | KN/PNY/29874 | M/s.Bhyraveshwara Credit Coop Society Ltd., Bangalore, | 16.02.2005 |
| 26 | KN/PNY/29055 | M/s.Siddaganga Urban Co-op Bank Ltd., Tumkur, | 03.01.2000 |
| 27 | KN/PNY/29699 | M/s.Porlu Packers, Bangalore, | 06.01.2004 |
| 28 | KN/PNY/29693 | M/s.Indus Electro Controls, Bangalore, | 06.01.2004 |
| 29 | KN/PNY/29121 | M/s.Incite Cam Centre, Banalore, | 03.01.2001 |
| 30 | KN/MN/20873 | M/s.Akshaya Power Services, Mangalore, | 07.01.2003 |
| 31 | KN/BN/41604 | M/s.Bhoruka Park Pvt. Ltd., Bangalore, | 04.01.2006 |
| 32 | KN/BN/42101 | M/s.InfoPrint India Pvt. Ltd., Bangalore, | 11.01.2006 |
| 33 | KN/BN/41817 | M/s.Pentagon Surveys Pvt. LTd., Bangalore, | 08.01.2006 |
| 34 | KN/BN/41898 | M/s.Centre for the study of Culture & Society, Banalore, | 07.01.2006 |
| 35 | KN/BN/41675 | M/s.Suprabhata Credit Co-op. Society Ltd., | 06.01.2006 |
| 36 | KN/BN/42007 | M/s.Lakshmi Network Solutions, Bangalore, | 11.01.2006 |
| 37 | KN/BN/42076 | M/s.Emphany Systems India Pvt. Ltd., Bangalore, | 12.01.2006 |
| 38 | KN/PNY/29432 | M/s.Modelytics India Pvt. Ltd., Bangalore, | 01.01.2003 |
| 39 | KN/42314 | M/s. Tulsi Ceramics, Bangalore, | 01.05.2007 |
| 40 | KN/41864 | M/s.Statclean Technology India Pvt. Ltd., Bangalore, | 01.09.2006 |
| 41 | KN/36713 | M/s.The Union Farmers Service Co-operative Bank Ltd., Kadakola, Mysore Tq. | 01.10.2006 |
| 42 | KN/CKR/37125 | M/s.L A M P Society, Koppa, Chikmagalur, | 01.11.2004 |
| 43 | KN/CKR/37124 | M/s.Chikmagalur Dist Graduate Multipurpose Co-op Society, Chikmagalur, | 01.09.2004 |
| 44 | KN/CKR/37196 | M/s.Vyavasaya Seva Sahakari Bank, Gonibeedu, Chikmagalur Dist., | 01.03.2005 |
| 45 | KN/36474 | M/s.Bharathiya Sahakara Bank Niyamitha, Mysore, | 01.02.2005 |
| 46 | KN/42273 | M/s.Space Geo Tech, Bangalore, | 01.04.2007 |
| 47 | KN/30329 | M/s.Kanva Public School, Bangalore, | 01.01.2007 |
| 48 | KN/42264 | M/s.Meritus Analytics India Pvt. Ltd., Bangalore, | 01.04.2007 |
| 49 | KN/38428 | M/s.Mangalore University Employees Credit Co-op Society Ltd., Mangalore, | 01.09.2006 |
| 50 | KN/42138 | M/s.Zenith Realty Projects Pvt. Ltd., Bangalore, | 01.01.2007 |
| 51 | KN/42061 | M/s.Trishul Engineers,Bangalore, | 25.01.2007 |
| 52 | KN/42134 | M/s.Conference Call Services India (P) Ltd., Bangalore, | 01.02.2007 |
| 53 | KN/38220 | M/s.Workwell Machine Tools, Mangalore, | 01.02.2005 |
| 54 | KN/36668 | M/s.Mallanayakanakate MPCs Ltd., Mysore, | 01.06.2006 |
| 55 | KN/CKR/37026 | M/s.Madenur Prathamika Krushi Pattina Sahakari Bank Niyamith, Hassan, | 01.04.2003 |

| | | | |
|----|--------------|--|------------|
| 56 | KN/CKR/37130 | M/s.Sree Vasavamba Co-op Bank Ltd., Holenarasipura, Hasan Dt., | 01.12.2004 |
| 57 | KN/CKR/37164 | M/s.Vyavasaya Seva Sahakari Bank, Chikmagalur, | 01.01.2005 |
| 58 | KN/CKR/37165 | M/s.Vyavasaya Seva Sahakari bank, Indavara, Chikmagalur, | 01.01.2005 |
| 59 | KN/CKR/37178 | M/s.Nidigere PACC Bank Ltd., Hasan Dist. | 01.02.2005 |
| 60 | KN/CKR/37199 | M/s.Vyavasaya Seva Sahakari Bank, Sirvase, Chikmagalur, | 01.03.2005 |
| 61 | KN/CKR/37216 | M/s.Shiva Sahakari Bank Niyamitha Tarikere, Chikmagalur, | 01.07.2005 |
| 62 | KN/CKR/37221 | M/s.PACC Bank Ltd., Mosale, Hassan Dist., | 01.08.2005 |
| 63 | KN/CKR/37244 | M/s.Sri Venkateshwara Colour Prints, Hassan, | 01.04.2006 |
| 64 | TN/MD/57845 | M/s Hotel Suganya, Dindigul | 01.11.2006 |
| 65 | TN/MD/57665 | M/s Arulmigu Vandi Kaliyamman Thirukoil, Didigul | 01.03.2006 |
| 66 | TN/TI/55730 | M/s Arulmigu Sakthi Ganapathy Thirukoil | 01.03.2006 |
| 67 | TN/TI/55729 | M/s Arulmigu Theppakulam Mariamman, Thirukoil | 01.03.2006 |
| 68 | TN/SLM/70365 | M/s L&T Krishnagiri Dharmapuri | 01.04.2006 |
| 69 | TN/SLM/70487 | M/s K.K.249 Sigaramaganapalli Primary Agricultural CO-op. Bank, Thottakanam Vil. | 01.11.2006 |
| 70 | TN/AMB/66046 | M/s Balda Motherson Solution India Limited, | 01.07.2006 |
| 71 | TN/AMB/66193 | M/s Saravana Enterprises, | 01.07.2006 |
| 72 | TN/AMB/66200 | M/s Ramu Constructions, | 16.11.2006 |
| 73 | TN/AMB/66178 | M/s Adithya Engineering, | 01.08.2006 |
| 74 | TN/AMB/66048 | M/s Arulmigu Devi Balamman Thirukoil, | 01.03.2006 |
| 75 | TN/AMB/66122 | M/s Arulmigu Devi Karumariamman Temple, | 01.03.2006 |
| 76 | TN/AMB/66121 | M/s Arulmigu Kadumbadi Chinnamman Temple, | 01.03.2006 |
| 77 | TN/AMB/66280 | M/s Selva Vinayaga Industries, | 01.11.2006 |
| 78 | TN/AMB/66109 | M/s Dexterity KPO Services Private Limited, | 01.05.2006 |
| 79 | TN/74173 | M/s Chengam Agriculture Producers Co-op Marketing Society, | 01.06.2006 |
| 80 | TN/VL/74158 | M/s Azaganandal Primary Agricultural Co-op. Bank Limited, | 01.05.2006 |
| 81 | TN/VL/74128 | M/s Arulmigu Arunachaleswarar Temple, | 01.03.2006 |
| 82 | TN/VL/74142 | M/s Arulmigu Regugambal Amman Temple, | 01.04.2006 |
| 83 | TN/PDY/1555 | M/s Pondicherry Management & Productivity Council, | 01.09.2006 |
| 84 | TN/VL/74127 | M/s Arulmigu Balasubramanisamy Temple, | 01.03.2006 |
| 85 | TN/MDU/42817 | M/s Sri Valli Varadharaj Matriculation School, Varadharaj Nagar | 01.01.2003 |
| 86 | TN/MDU/57614 | M/s Arulmigu Dharmasastha Thirukoil, Andipatti | 01.03.2006 |
| 87 | TN/MDU/57817 | M/s K S M College of Education for women, Madurai | 01.10.2006 |
| 88 | TN/TRY/43743 | M/s V.Ayyappan, Mannargudi Post | 01.06.2001 |
| 89 | TN/TRY/43740 | M/s Vinolia Tourist Cabs, Naore | 01.06.2001 |
| 90 | TN/TRY/43592 | M/s Indo-British Matriculation School, Padakkudi | 01.04.2000 |

| | | | |
|-----|--------------|---|------------|
| 91 | TN/TRY/43591 | M/s Raj Transports, Kumbakonam | 01.04.2000 |
| 92 | TN/TRY/43746 | M/s S R Cabs, Nagore | 01.06.2001 |
| 93 | TN/TRY/43744 | M/s P.Ramadoss, Kumbakonam | 01.05.2001 |
| 94 | TN/TRY/43749 | M/s R Sundaramurthy, Mayiladuthurai | 01.05.2001 |
| 95 | TN/TI/55744 | M/s Arulmigu Muthumalaiamman Tirukovil | 01.03.2006 |
| 96 | TN/MD/57018 | M/s Essar Pentagon Systems | 01.03.2004 |
| 97 | TN/MD/57043 | M/s Q.1198, Thiruppulani Panchayat Union Employees and Teachers Co-op. Thrift & Credit Society Ltd | 01.04.2004 |
| 98 | TN/MD/57608 | M/s M.S.1159, Avilipatti Milk Producers Co-op. Society | 01.01.2006 |
| 99 | TN/MD/57078 | M/s M.S.1158, Veerachinnampatty Milk Producers' Co-op. Society Ltd | 01.06.2004 |
| 100 | TN/MD/42975 | M/s Sri Murugan Engineering Works | 01.12.2003 |
| 101 | TN/MD/57059 | M/s D.D.462, Sanarpatti Milk Producers' Co-op. Society Ltd | 01.05.2004 |
| 102 | TN/VL/74100 | M/s Sunsteel Works | 01.03.2006 |
| 103 | TN/MD/57603 | M/s M.D.Spl.194 Theni, Allinagaram Co-op. Housing Society Ltd | 01.01.2006 |
| 104 | TN/TBM/60099 | M/s Srivarasithi Vinayagar Industries | 01.07.2001 |
| 105 | TN/TR/44516 | M/s Rajaali Hotel | 01.03.2005 |
| 106 | TN/PC/1460 | M/s Sharana Social & Deveopment Organisation | 01.02.2006 |
| 107 | TN/TBM/60314 | M/s Daejung Moparts Pvt Ltd | 01.12.2002 |
| 108 | TN/TBM/60557 | M/s NPS Technology Pvt Ltd | 01.06.2004 |
| 109 | TN/TBM/60264 | M/s Jeevan Logistics (P) Ltd | 01.12.2002 |
| 110 | TN/TBM/60482 | M/s Chennai Moulds | 01.04.2004 |
| 111 | TN/60521 | M/s Automatic Spring Industries | 01.03.2004 |
| 112 | TN/TBM/60347 | M/s VIN Biotech Systems Ltd | 01.04.2003 |
| 113 | TN/MD/57194 | M/s Geetha Lamination | 01.11.2004 |
| 114 | TN/MD/42804 | M/s N.N.496, Bogalur Panchayat Union Employees and Teachers Co-op. Thrift & Credit Society | 01.12.2002 |
| 115 | TN/MD/57539 | M/s Q.437 Kakkivadanpatti Primary Agricultural Co-op. Bank Ltd | 01.09.2005 |
| 116 | TN/MD/57370 | M/s D.D.378, Oddanchatram Co-op. Building Society Ltd | 01.01.2005 |
| 117 | TN/MD/42902 | M/s Ambelal Heinrich Memorial Trust | 01.05.2003 |
| 118 | TN/MD/57438 | M/s Karpagam Auto House | 01.04.2005 |
| 119 | TN/MD/57468 | M/s Sree Kodai Associates | 01.05.2005 |
| 120 | TN/MD/57443 | M/s Alagar Resings (P) Ltd | 01.04.2005 |
| 121 | TN/MD/57133 | M/s Thangam Engineering Works | 01.09.2004 |
| 122 | TN/MD/57561 | M/s Ramani Engineering | 01.10.2005 |

| | | | |
|-----|--------------|--|------------|
| 123 | TN/MD/57526 | M/s A.2925 Alagapuri Primary Agricultural Co-op. Bank | 01.08.2005 |
| 124 | TN/MD/57389 | M/s K.M.Bioned | 01.02.2005 |
| 125 | TN/MD/42968 | M/s Rural Area Development Trust | 01.11.2003 |
| 126 | TN/MD/57460 | M/s A 2133 Kariyampatti Primary Agricultural Co-op. Bank | 01.05.2005 |
| 127 | TN/MD/57456 | M/s A 2164, Veerappa Goundavalasu Primary Agricultural Co-op. Bank | 01.04.2005 |
| 128 | TN/MD/57490 | M/s Institute of the Soldiers of God | 01.06.2005 |
| 129 | TN/CB/56769 | M/s Eastman Clothing Company | 01.06.2004 |
| 130 | TN/5081 | M/s Inlogic Biz.Com (P) Ltd | 01.09.2004 |
| 131 | TN/MD/57596 | M/s RA 413 Thiagi Sankaralinganar Insittute of Co-op. Management | 01.12.2005 |
| 132 | TN/51734 | M/s Zelan Construction (India) Pvt Ltd | 01.12.2005 |
| 133 | TN/MD/57501 | M/s C.R.Packaging | 01.07.2005 |
| 134 | TN/MD/57459 | M/s Surya Chemicals M/s Nithya Match Works | 02.05.2005 |
| 135 | TN/MD/57439 | M/s Nithya Match Works | 01.04.2005 |
| 136 | TN/MD/57449 | M/s Vinod Colours | 01.04.2005 |
| 137 | TN/MD/57045 | M/s 424, Melathirumanickam Milk Producers Co-op. Society Ltd | 01.04.2004 |
| 138 | TN/MD/57395 | M/s Aruppukottai Sri Jeyavilas Ltd | 01.02.2005 |
| 139 | TN/MD/57244 | M/s Muthu Electrical Contract Works | 01.12.2004 |
| 140 | TN/MD/57453 | M/s Champion Process | 01.04.2005 |
| 141 | TN/MD/57077 | M/s Sri Karpaga Products | 01.06.2004 |
| 142 | TN/MD/57450 | M/s Selvalakshmi Packaging | 01.04.2005 |
| 143 | TN/MD/42952 | M/s Theivanai Industries | 01.09.2003 |
| 144 | TN/MD/57462 | M/s Krishna Chemical Industries | 02.05.2005 |
| 145 | TN/MD/57253 | M/s Arun Automobiles | 01.12.2004 |
| 146 | TN/MD/57520 | M/s D.M.J. Hi-tech Tool Room | 01.08.2005 |
| 147 | TN/MD/57004 | M/s Venus Security Force | 01.02.2004 |
| 148 | TN/MD/57327 | M/s DD 193 Dindigul Co-op. Housing Society Ltd | 01.01.2005 |
| 149 | TN/MD/57433 | M/s A-79/1145 Dindigul Co-op. Building Society Ltd | 01.03.2005 |
| 150 | TN/MD/57190 | M/s Q 459 Coats Vieyella Employees' and others Co-op. Society Ltd | 01.11.2004 |
| 151 | TN/MD/7379 | M/s Popular Springs & Wire Products | 01.02.2005 |
| 152 | TN/MD/57360 | M/s Neat and Clean Service Squad | 01.01.2005 |
| 153 | TN/MD/57224 | M/s Suresh Gas Agencies | 01.11.2004 |
| 154 | TN/TAM/60489 | M/s Formo Plastics Control Private Ltd | 01.04.2004 |
| 155 | TN/MD/57243 | M/s Vijaya Clinical Laboratory & X-rays | 01.12.2004 |

| | | | |
|-----|--------------|--|------------|
| 156 | TN/MD/57110 | M/s Aarathy Doive Inn Restaurant | 01.08.2004 |
| 157 | TN/TBM/60286 | M/s T.M.X.Precision Tooling (India) Pvt Ltd | 01.01.2003 |
| 158 | TN/TBM/60112 | M/s Global Automation (P) Ltd | 01.08.2001 |
| 159 | TN/TBM/60171 | M/s P.Krishnan -Civil Engineers Contractor | 01.03.2002 |
| 160 | TN/TBM/60344 | M/s Gates Unitta India Co. (P) Ltd | 01.12.2002 |
| 161 | TN/TBM/60512 | M/s Peter Black Footwear & Accessories. | 01.05.2004 |
| 162 | TN/MD/57829 | M/s M.D.Spl.82, Endapuli P.D.C. Bank, Endapuli – 625 601 | 01.11.2006 |
| 163 | TN/TI/55923 | M/s Arasan Diesel, Tuticorin | 01.01.2007 |
| 164 | TN/TI/55859 | M/s The Ottapidanum Taluk Co-operative Housing Society Ltd, Tuticorin | 01.08.2006 |
| 165 | TN/MD/57058 | M/s Venkateswara Hotel, Ramanathapuram | 01.05.2004 |
| 166 | TN/TI/55741 | M/s Arulmigu Magara Nedukulaikadhar Thirukovil | 01.03.2006 |
| 167 | TN/SLM/70528 | M/s Arulmigu Periya Mariamman Vakaria Thirukovil, Erode | 01.03.2007 |
| 168 | TN/SLM/70530 | M/s Arulmigu Sangameswarar Thirukovil | 01.03.2007 |
| 169 | TN/SLM/70525 | M/s Arulmigu Thamikkalai Ayyan Swamy Thirukkivil, | 01.01.2007 |
| 170 | TN/SLM/70534 | M/s Arulmigu Velayuthaswami Thirukovil, Thindalmalai, Erode | 01.01.2007 |
| 171 | TN/MD/57657 | M/s R.K.17,Viruthunagar District Co-operative Union "Pasumal Illam", Viruthunagar | 01.02.2006 |
| 172 | TN/MD/57742 | M/s Anandam Pattu Centre, Ramanathapuram | 01.06.2006 |
| 173 | TN/MD/57861 | M/s A.D.R. Plastics, Madurai | 01.02.2007 |
| 174 | TN/MD/57740 | M/s Anandam Textiles, Ramanathapuram | 01.06.2006 |
| 175 | TN/MD/57741 | M/s Anandam Readymades, Ramanathapuram | 01.06.2006 |
| 176 | TN/MD/57803 | M/s Q-360, Devakottai Municipal Superior Employees & Teachers Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Sivagangai | 01.09.2006 |
| 177 | TN/CBE/73026 | M/s Arulmigu Vazhai Thottathu Iyyan Temple, Samalapuram, Coimbatore | 01.03.2007 |
| 178 | TN/AMB/66177 | M/s Divyesh Engineering Works, Chennai | 01.08.2006 |
| 179 | TN/AMB/66256 | M/s KMA Auto Components Pvt.Ltd, Chennai | 01.08.2006 |
| 180 | TN/AMB/66330 | M/s M.G.Trident Toolong India(P) Ltd, Chennai | 01.09.2006 |
| 181 | TN/VL/ 74225 | Pavupattu Village, Vellore | 01.10.2006 |
| 182 | TN/VL/74209 | Palayanoor Post, Vellore | 01.10.2006 |
| 183 | TN/VL/74236 | M/s T.Kalleri Primary Agricultural Co-op Bank, Vellore | 01.01.2007 |
| 184 | TN/VL/74228 | M/s Vilangkuppam Milk Producers Co-op Society, Vellore | 01.12.2006 |

| | | | |
|-----|--------------|---|------------|
| 185 | TN/VL/74234 | M/s. Pachal Milk Producers Co-op Society, Vellore | 01.01.2007 |
| 186 | TN/VL/74229 | Society, Vellore | 01.12.2006 |
| 187 | TN/MD/57850 | M/s R.G.Plastics, Madurai | 01.12.2006 |
| 188 | TN/TI/55710 | M/s Vadamar Vinayagar Temple, Tiruchendur Tq. | 01.03.2006 |
| 189 | TN/TI/55700 | M/s Arulmigu Anthinathar Alwar Thirukoil, Alwarthirunagari | 01.03.2006 |
| 190 | TN/TI/55728 | M/s Sankara Rameswarar Temple, Tuticorin | 01.03.2006 |
| 191 | TN/TI/55766 | M/s Aruimigu Vaigundapathy Thirukoil, Tuticorin | 01.03.2006 |
| 192 | TN/TI/55767 | M/s Aruimigu Santhanamariamman Thirukoil, Tuticorin | 01.03.2006 |
| 193 | TN/SLM/70618 | M/s S.2123 Marandahalli Primary Agricultural Cooperative Bank, Palacode | 01.04.2007 |
| 194 | TN/SLM/70619 | M/s S.421 Chennasamudiram Primary Agricultural Cooperative Bank, Chennasamudiram Post | 01.05.2007 |
| 195 | TN/SLM/70617 | M/s S.422 Nedumarudhi Primary Agricultural Co-op. Bank, Veerojpalli | 01.05.2007 |
| 196 | TN/TR/44234 | M/s Bharath Pavers, Mathur | 10.06.2004 |
| 197 | TN/TR/43658 | M/s Prasad Exporters, Kamarajapuram, Karur | 01.01.2006 |
| 198 | TN/AMB/66353 | M/s Southern Logistics Private Ltd, Annanagar, Chennai | 01.02.2007 |
| 199 | TN/VL/74260 | Credit & Thrift Society | 01.02.2007 |
| 200 | TN/VL/74259 | M/s Tirupattur Circle Primary Agricultural Co-op. Bank Employees Thrift & Credit Society, Chennai | 01.02.2007 |
| 201 | TN/AMB/66049 | M/s Arulmigu Sowmiya Damodhara Perumal Temple, Chennai | 01.03.2006 |
| 202 | TN/AMB/66052 | M/s Arulmigu Om Sri Sara Siddhi Sundara Vinayagar Temple, Avadi, Chennai | 01.03.2006 |
| 203 | TN/AMB/66338 | M/s Voltech Transformers Pvt Ltd, Chennai | 01.09.2006 |
| 204 | TN/MD/57802 | M/s M.D.Spl.50, Silvarpatti PAC Bank, Silvarpatti | 01.09.2006 |
| 205 | TN/MD/57126 | M/s MD(SPL)185, Kumbum Co-op. Housing Society Ltd, Kumbum | 01.09.2004 |
| 206 | TN/CBE/73072 | M/s Jai Traders, Pollachi Road, Udumalpet | 01.03.2007 |
| 207 | TN/SLM/70626 | M/s Arulmigu Veerakumarasamy Thirukoil, Vellakoil | 01.04.2007 |
| 208 | TN/SLM/70696 | M/s K.K.55, Chinnakothur P.A.C.B., Gangojikothur Post | 01.05.2007 |
| 209 | TN/SLM/70547 | M/s Arulmigu Subramania Swami Thirukovil Sivanmalai, Kangayam Tq. | 01.03.2007 |
| 210 | TN/SLM/70561 | M/s Arulmigu Kottai Mariamman Temple, Salem | 01.03.2007 |
| 211 | TN/SLM/70535 | M/s Arulmigu Kondatthukaliyamman Thirukoil Pannari, Gobi | 01.01.2007 |
| 212 | TN/SLM/70546 | M/s Arulmigu Kongalamman Thirukovil, Erode Town | 01.03.2007 |
| 213 | TN/SLM/70529 | M/s Arulmigu Magudeswarar & Veerananarayana Perumal Thirukoil, Kodumudi | 01.01.2007 |

| | | | |
|-----|--------------|---|------------|
| 214 | TN/SLM/70681 | M/s Arulmigu Badhrakaliyamman Temple, Mecheri | 01.04.2007 |
| 215 | TN/SLM/70680 | M/s Arulmigu Prasanna Venkatachalapathy & Mariamman Temple, Shevapet, Salem | 01.04.2007 |
| 216 | TN/SLM/70523 | M/s Arulmigu Bannari Mariamman Thirukovil, Bannari | 01.01.2007 |
| 217 | TN/TR/44243 | M/s ATMRCM Vasavi Vidhyalaya Matriculation School, Tiruchirappalli | 01.06.2004 |
| 218 | TN/TR/44934 | M/s Arulmigu Kalyana Venkata Ramana Swamy Temple, Karur | 01.03.2006 |
| 219 | TN/VL/74119 | M/s Arulmigu Ulagalantha Perumal Thirukovil, Kanchipuram | 01.03.2006 |
| 220 | TN/VL/74122 | M/s Arulmigu Ekambarnathar Thirukkivil, Kanchipuram | 01.03.2006 |
| 221 | TN/VL/74138 | M/s Arulmigu Devaraja Swamy Thirukovil, Kanchipuram | 01.03.2006 |
| 222 | TN/VL/74152 | M/s Arulmigu Katchapeswarar Swamy Thirukkivil, Kanchipuram | 01.05.2006 |
| 223 | TN/VL/74192 | M/s Voundikudisai Milk Producers Co.op., Society, Velleri PO, Arni TK. | 01.08.2006 |
| 224 | TN/VL/74197 | M/s Vettiyantholuvam Milk Producers Co.op., Society, Arni TK. | 01.09.2006 |
| 225 | TN/VL/74198 | M/s Ramachandrapuram Womens Milk Producers Co.op., Society, Arni TK | 01.09.2006 |
| 226 | TN/VL/74233 | M/s Vadakkumedu Milk Producers Co.op., Society, Vadukkumedu, Panaiyur PO, Arni, TK | 01.12.2006 |
| 227 | TN/VL/74245 | M/s Devikapuram Co.op., Stores Limited, Devikapuram, Arni TK | 01.01.2007 |
| 228 | TN/60812 | M/s Vortex Engineering Private Limited, Chennai | 01.09.2005 |
| 229 | TN/60248 | M/s Eazhil Engineering, Chennai | 01.09.2002 |
| 230 | TN/60357 | M/s Sri Vaari Industries, Chennai | 01.04.2003 |
| 231 | TN/60216 | M/s Sri Vaari Electricals Private Limited, Chennai | 01.07.2002 |
| 232 | TN/61154 | M/s Sri Baba Engineering Co., Chennai | 01.07.2006 |
| 233 | AP/47704 | M/s Janaharsha Publishers Pvt Ltd, Secunderabad | 06.08.2004 |
| 234 | AP/52394 | M/s UBS Service Centre (I) Pvt.Ltd, Rajendra Nagar, R R Dist. | 01.11.2005 |
| 235 | AP/56078 | M/s AOC Centre Unit Run Canteen, Secunderabad | 06.12.2006 |
| 236 | AP/RJY/46926 | M/s Kamalapriya Agro & General Agencies, Kakinada | 03.11.2006 |
| 237 | AP/52350 | M/s Ideaworks Technology India Pvt LTd, Secunderabad | 01.11.2005 |
| 238 | AP/53796 | M/s Haecon Equipments, Hyderabad | 01.05.2006 |
| 239 | AP/WGL/44993 | M/s Pothana Purushula Podupu Samithi, Panthini, Warangal Dist. | 01.01.2005 |
| 240 | AP/WGL/44994 | M/s Rudramadevi Mahila Paraspura Sahayaka Sahakara Podupu Parapati Sangam Ltd, Janagaon, Warangal Dist. | 01.02.2005 |

| | | | |
|-----|--------------|--|------------|
| 241 | AP/WGL/44995 | M/s The Jangaon Central Warehouse Hamali Co-op. Labour Contract Society Ltd, Jangaon, Warangal Dist. | 01.04.2005 |
| 242 | AP/WGL/45000 | M/s Bharatiya Purushula Podupu Samithi, | 01.01.2005 |
| 243 | AP/WGL/50603 | M/s Saraswathi Mahila Podupu Co-operative Society, | 01.06.2005 |
| 244 | AP/WGL/50611 | M/s Pratapa Rudra Purushula Podupu Samithi, Kondaparthi, Warangal Dist. | 01.07.2005 |
| 245 | AP/WGL/50635 | M/s Rani Rudrama Devi Mahila Podupu Samithi, Mogumpuram, Warangal Dist. | 01.07.2005 |
| 246 | AP/WGL/50760 | M/s Primary Agricultural Co-operative Society Ltd, | 01.10.2006 |
| 247 | AP/WGL/50798 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society, Kandukuru, Khammam Dist. | 01.04.2006 |
| 248 | AP/WGL/50799 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Lachannagudem, Khammam Dist. | 01.04.2006 |
| 249 | AP/WGL/50800 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Bharanipadu, Khammam Dist. | 01.04.2006 |
| 250 | AP/WGL/50801 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Ammapalem, Khammam Dist. | 01.10.2006 |
| 251 | AP/WGL/50802 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Narayanapuram, Khammam Dist. | 01.04.2006 |
| 252 | AP/WGL/50814 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Kistaram, Khammam Dist. | 01.04.2006 |
| 253 | AP/WGL/50815 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Ravinootala, Khammam Dist. | 01.11.2006 |
| 254 | AP/WGL/50816 | M/s The Large Sized Co-op. Credit Society Ltd, Dammipeta, Khammam Dist. | 01.04.2006 |
| 255 | AP/WGL/50817 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Raghunathapalem, Khammam Dist. | 01.11.2006 |
| 256 | AP/WGL/50818 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Siddinenigudem, Khammam Dist. | 01.11.2006 |
| 257 | AP/WGL/50819 | M/s The Farmers' Service Co-op Society Ltd, Madhira, Khammam Dist. | 01.11.2006 |
| 258 | AP/WGL/50820 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Motamarri, Khammam Dist. | 01.11.2006 |
| 259 | AP/WGL/50821 | M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Dendukur, Khammam Dist. | 01.11.2006 |
| 260 | AP/KDP/54681 | M/s Beldony Primary Agricultural Co-operative Credit Society, Beldona, Kurnool Dist. | 01.02.2007 |
| 261 | AP/53673 | M/s Shreyans Wires & Cables (P) Ltd., Cherlapally, Hyderabad | 01.08.2006 |
| 262 | AP/56481 | M/s Venkateswara Agrovet Services (P) Ltd., Sainikpuri X Road, Sec'bad | 09.03.2007 |

| | | | |
|-----|--------------|---|------------|
| 263 | AP/56589 | M/s Blue Horizon Air Charter Services Pvt. Ltd., Distillery Road, Sec'bad | 01.05.2007 |
| 264 | AP/56647 | M/s APP Systems (India) Pvt. Ltd., Cherlapally, Hyderabad | 01.06.2007 |
| 265 | AP/56703 | Arya High School, Chaderghat, Hyderabad | 01.07.2007 |
| 266 | AP/WGL/50748 | M/s Rahul Dalitha Labour Contract Paraspura Sahayaka Sahakara Sangam Ltd., Hanmakonda, Warangal | 01.09.2006 |
| 267 | AP/WGL/50750 | M/s Farmers Service Co-Operative Society Ltd., Mangapeta, Warangal Dist. | 01.01.2006 |
| 268 | AP/WGL/50780 | M/s Primary Agricultural Co-Operative Society Ltd., Nachinapally, Warangal Dist. | 01.01.2007 |
| 269 | AP/WGL/50788 | M/s Primary Agricultural Co-Operative Society Ltd., Nellikuduru, Warangal Dist. | 01.01.2007 |
| 270 | AP/WGL/50789 | M/s Primary Agricultural Co-Operative Society Ltd., Duggondi, Warangal Dist. | 01.01.2007 |
| 271 | AP/WGL/50793 | M/s Mattewada Dalitha Municipal Corporation Sanitary & Civil Works Labour Contract PSSS Ltd., Mattewada, Warangal | 01.12.2006 |
| 272 | AP/WGL/50832 | M/s Maruthi Security Guards Services & Placement Agency, M.G., Road, Warangal | 01.04.2007 |
| 273 | AP/WGL/50833 | M/s Vijay Security Services, J.P.N. Road, Warangal | 01.04.2007 |
| 274 | AP/RJY/46956 | M/s Moyyeru PACS, Ganapavaram Mdl., W.G. Dist. | 01.03.2007 |
| 275 | AP/RJY/46957 | M/s Gowripatnam PACS Ltd., Devarapally Mdl., W.G. Dist. | 01.03.2007 |
| 276 | AP/RJY/46980 | M/s Penumantra Large Sized Co-op. Credit Society Ltd., Penumantra, W.G. Dist. | 01.03.2007 |
| 277 | KN/BGL/42272 | M/s.Menzies Aviation Bobba (B'lore) Pvt. Ltd., Bangalore | 02/05/2007 |
| 278 | KN/BGL/42225 | M/s.Ad Astra Consultants (P) Ltd., Bangalore, | 01/03/2007 |
| 279 | KN/BGL/42408 | M/s.NOK Airlines Company Limited, Bangalore, | 01/06/2007 |
| 280 | KN/MNG/38504 | M/s.Kadri Shree Manjunatheshwara Temple, Kadri, Mangalore, | 01/06/2007 |
| 281 | KN/BGL/42315 | M/s.Sri Sai Enterprises, Bangalore, | 01/04/2007 |
| 282 | KN/HBL/40055 | M/s.Shri Basaveshwar Urban Co-op Credit Society Ltd., Mudalqi | 01/09/2005 |
| 283 | KN/HBL/27711 | M/s.The Belgaum Consumers Co-op. Wholesale Stores Ltd., Belgaum | 01/10/2004 |
| 284 | KN/HBL/27826 | M/s.Shree Mahalaxmi Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Gokak | 01/02/2005 |
| 285 | KN/HBL/40034 | M/s.Shri Basaveshwar Urban Co-op. Credit Society Ltd., Ilallur | 01/10/2005 |

| | | | |
|-----|--------------|--|------------|
| 286 | KN/HBL/27543 | M/s.Shri Bhagyalaxmi Co-op. Credit Society Ltd., Ghataprabha | 01/04/2004 |
| 287 | KN/HBL/27114 | M/s.Chunchanur Krishi Sahakari Bank Niyamit, Chunchanur | 01/10/2001 |
| 288 | KN/HBL/40052 | M/s.Ambadagatti Prathamik Krishi Pattin Co-op. Bank Ltd., Ambadagatti | 08/11/2005 |
| 289 | KN/HBL/40033 | M/s.The Amanath Co-op. Credit Society (N), Gokak | 01/10/2005 |
| 290 | KN/HBL/40194 | M/s.Chaitanya Urban Co-op. Credit Society Ltd., Mudalagi | 01/10/2006 |
| 291 | KN/HBL/40101 | M/s.Prathamik Krishi Pattin Sahakari Bank Niyamit, Ilanchinal | 07/10/2005 |
| 292 | KN/MYS/36669 | M/s.Siddaihana Koppalu MPCs Ltd., Kothithi(H) | 01/06/2006 |
| 293 | KN/MYS/36550 | M/s.V S S N Bank Niyamita, Muthanahalli | 01/11/2005 |
| 294 | KN/PNY/30566 | M/s.Basaweshwaranagara Co-op. Credit Society Ltd., Bangalore | 01/10/2007 |
| 295 | KN/MYS/36875 | M/s.Bilikere Vyavasaya Seva Sahakara Bank Niyamitha, Bilikere | 01/09/2007 |
| 296 | KN/BGL/42394 | M/s.Sujan Infotech, Bangalore | 01/06/2007 |
| 297 | KN/BGL/42383 | M/s.Pace Micro Technology India Pvt. Ltd., Bangalore | 01/06/2007 |
| 298 | KN/PNY/30561 | M/s.Sri Gayathri Credit Co-op. Society Ltd., Tumkur | 01/09/2007 |
| 299 | KN/HBL/40341 | M/s.Jagadguru Renukacharya Co-op. Credit Society, Hubli | 01/01/2007 |
| 300 | KN/HBL/40442 | M/s.Dr.C.Fernandes Co-op. Credit Society Ltd., Honnavar | 01/07/2007 |
| 301 | KN/BGL/42480 | M/s.Traco Software Pvt. Ltd., Bangalore | 01/07/2007 |
| 302 | KN/MNG/38563 | M/s.Kadipatna Nadipatna Vidya Pracharaka Sanga, Padubidri | 01/09/2007 |
| 303 | KN/PNY/30396 | M/s.Sira Taluk Sri Kanaka Credit Co-op. Society ®, Sira | 01/06/2007 |
| 304 | KN/BGL/42477 | M/s.Tallam Ventures, Bangalore | 01/07/2007 |
| 305 | KN/MNG/38332 | M/s.Sumangala Credit Co-op. Society Ltd., Panemangalore | 01/12/2005 |
| 306 | KN/MNG/38204 | M/s.Keerthesh Enterprises, Mangalore | 01/01/2005 |
| 307 | KN/BGL/42235 | M/s.Disa Technologies Pvt. Ltd., Bangalore | 01/03/2007 |
| 308 | KN/BGL/42350 | M/s.Vaishnavi Infrastructure Pvt. Ltd., Bangalore | 01/05/2007 |
| 309 | KN/MNG/38136 | M/s.Sri Ganesh Winders, Mangalore | 01/08/2004 |
| 310 | KN/BGL/42373 | M/s.Tusker Legal and Consultancy Services Pvt. Ltd., Bangalore | 01/06/2007 |
| 311 | KN/CKR/37264 | M/s.Belur Urban Co-op. Bank Ltd., Belur | 01/03/2007 |
| 312 | KN/PNY/30387 | M/s.Raikar Metal Industries, Bangalore | 01/06/2007 |
| 313 | KN/BGL/30388 | M/s.Acer Machine Tools Pvt. Ltd., Bangalore | 01/06/2007 |
| 314 | TN/66360 | M/s. Expert Cad (India) Private Limited, Chennai | 01.03.2007 |

| | | | |
|-----|----------------|--|------------|
| 315 | TN/66365 | M/s Dibus Technology Solutions Private Limited, Chennai | 01.03.2007 |
| 316 | TN/VI/74011 | M/s. Poongulam Primary Agricultural Co-op Bank Limited, Chennai | 01.05.2005 |
| 317 | TN/CBE/73082 | M/s Arulmigu Mariamman Thirukkoil, Karuvalur | 01.03.2007 |
| 318 | TN/CBE/73065 | M/s Arulmigu Dhandu Mariamman Temple, Avinashi Road, Coimbatore | 01.03.2007 |
| 319 | TN/CBE/73058 | M/s Arulmigu Lakshmi Narsimhaswamy Thirukkivil, Ukkadam, Coimbatore | 01.03.2007 |
| 320 | TN/CBE/73057 | M/s Arulmigu Vinayakar Thirukkoil, Pollachi Main Road, Coimbatore | 01.03.2007 |
| 321 | TN/ SLM /70587 | M/s Arulmigu Arthanareeswarar Temple, Tiruchengode | 01.04.2007 |
| 322 | TN/ SLM /70701 | M/s Arulmigu Narasimhaswamy Thirukkivil, Namakkal | 01.04.2007 |
| 323 | TN/ SLM /70652 | M/s Arulmigu Kumaragiri Thandapani Swamy Temple, Salem | 01.04.2007 |
| 324 | TN/ SLM /70664 | M/s Arulmigu Subramania Swamy Thirukovil, Chenniamalai | 01.04.2007 |
| 325 | TN/ SLM /70715 | M/s Arulmigu Badrakaliyamman Thirukovil, Velliampathi | 01.06.2007 |
| 326 | TN/CBE/73099 | M/s Arulmigu Madurai Veeran Muniappasamy Temple, Udumalpet | 01.04.2007 |
| 327 | TN/CBE/73186 | M/s Arulmigu Kari Varatharaja Perumal Thirukkoilo, Pollachi | 01.04.2007 |
| 328 | TN/CBE/73111 | M/s Arulmigu Muthalamman Thirukkoil, Pulankinar, Udumalpet | 01.04.2007 |
| 329 | TN/CBE/73098 | M/s Arulmigu Prasanna Vinayagar Temple, Udumalpet | 01.04.2007 |
| 330 | TN/CBE/73430 | M/s Arulmigu Kondathu Kaliyamman Uthama Lingeswarar Athikesave Perumal Thirukkoil, Perumanallur, Tirupur | 01.08.2007 |
| 331 | TN/CBE/73342 | M/s Arulmigu Avinashi Lingeswarar Temple, Avinashi | 01.06.2007 |
| 332 | TN/SLM/70674 | M/s Arulmigu Varatharaja Perumal Vakaiyara Thirukovil, Vengambur | 01.04.2007 |
| 333 | TN/TRY/44804 | M/s Pure & Pure Aqua Foods, Trichy | 01.09.2006 |
| 334 | TN/TRY/43571 | M/s Rockcity CNC Point, Thuvadi, Trichy | 01.03.2000 |
| 335 | TN/TRY/43580 | M/s Milan, Kumbakonam | 01.03.2000 |
| 336 | TN/TRY/44920 | M/s Arulmigu Swaminatha Swamy Temple, Swamimalai | 01.03.2006 |
| 337 | TN/TRY/44870 | M/s Arulmigu Thayumana Swamy Thirukovil, Rockfort, Trichy | 01.03.2006 |
| 338 | TN/TRY/44953 | M/s Sri Renganatha Swamy Temple, Srirangam, Trichy | 01.03.2006 |
| 339 | TN/TRY/44996 | M/s Arulmighu Jembugeswarar Akilandeswari Thirukkivil, Trichy | 01.03.2006 |
| 340 | TN/TRY/76015 | M/s Arulmigu Mariamman Temple, Samayapuram Post. | 01.03.2006 |
| 341 | TN/TRY/44729 | M/s Pudukkottai Dt.Co-op. Departmental Staff Co-op. Thrift & Credit Society, Pudukkottai | 01.03.2006 |
| 342 | TN/TRY/44597 | M/s Malaikudipatti PACB Ltd. Malaikudipatti | 01.07.2005 |

| | | | |
|-----|--------------|--|------------|
| 343 | TN/MD/57784 | M/s Q. 667 Devakottai Municipal Menial Ees. Thrift & Credit Society, Devakottai | 01.08.2006 |
| 344 | TN/MD/57882 | M/s A 2903 Batlagundu Panchayat Union All Govt. Hr./Hr.Sec.School, Ees' Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Batlagundu | 01.04.2007 |
| 345 | TN/MD/57881 | M/s A 2537 Batlagundu Panchayat Ees' Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Batlagundu | 01.04.2007 |
| 346 | TN/MD/57136 | M/s R.S.830 Sivaganga Dist. Police Dept. Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Sivaganga | 01.09.2004 |
| 347 | TN/MD/57783 | M/s R.D.143, Sree Kaderi Ambal Mill Ees' Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Shanmuganathapuram, Devakottai | 01.08.2006 |
| 348 | TN/MD/57896 | M/s M.S.1366, Puliya Marathuset Milk Producers Co-op. Society, Puliymarathuset | 01.05.2007 |
| 349 | TN/MD/57895 | M/s M.S.417, Ayyampalayam Milk Producers Co-op. Society, Ayyampalayam | 01.05.2007 |
| 350 | TN/MD/57884 | M/s M.S.386, Odaipatti Milk Producers Co-op. Society, Odaipatty | 01.05.2007 |
| 351 | TN/MD/57883 | M/s M.S.224, Pappampatti Milk Producers Co-op. Society, Pappampatti | 01.05.2007 |
| 352 | TN/MD/57651 | M/s Arulmigu Srinivasa Perumal Thirukoil, Malaidivaram | 01.03.2006 |
| 353 | TN/MD/42746 | M/s R.A.361, Aruppukkottai PAC Bank, Aruppukkottai | 01.07.2002 |
| 354 | TN/TI/75154 | M/s TN SPL87, Pillaiyarnatham Primary Agricultural Co-op. Bank, Sankarankoil | 01.10.2006 |
| 355 | TN/VL/74401 | M/s Pogai PACB, Vellore | 01.08.2007 |
| 356 | TN/VL/74343 | M/s Kannamangalam PACB, Vellore | 01.06.2007 |
| 357 | TN/AMB/66445 | M/s Jaya Cabs, Ambattur | 01.02.2007 |
| 358 | TN/AMB/66490 | M/s Shri Hari Krishna Industries, Ambattur | 01.05.2007 |
| 359 | TN/AMB/66446 | M/s One Click Solutions (P) Limited, Ambattur | 01.05.2007 |
| 360 | TN/AMB/66476 | M/s Mercury Business Solutions, Ambattur | 01.06.2007 |
| 361 | TN/VL/74338 | M/s Isukazhikatteru PACB, Vellore | 01.06.2007 |
| 362 | KR/KTM/20329 | M/s Jan Sikshan Sansthan Idukki, Kerala | 01.01.2007 |
| 363 | KR/KC/21870 | M/s Kalliath Tiles, Trissur | 01.05.2007 |
| 364 | KR/KC/21711 | M/s Vaidyaratnam Ayurveda Foundation, Trichur Dist. | 01.01.2007 |
| 365 | KR/KC/21710 | M/s Puzhakkal Developers Pvt. Ltd, Trichur. | 08.02.2007 |
| 366 | KR/KK/23365 | M/s Lakshmy Tools, Palakkad | 01.08.2007 |
| 367 | KR/TVM/22109 | M/s Sequiter IT Services, Trivandrum | 01.07.2005 |
| 368 | KR/KC/21833 | M/s J.P.Hotel & Shopping Complex, Trichur | 01.04.2007 |

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

U. C. TEWARI
Additional Central P. F. Commissioner(SZ)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 27th May 2008

No. N-15/13/10/2/2003-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st June, 2008** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Orissa** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1957** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Orissa** namely:-

Revenue villages of Baragadia, Sarangpur, Godigotha, Nuagan, Golagaon, Khurunti, Managobindpur, Gadapur, Mangalpur, Jakhapura, Rabana, Kacherigaon, Dasamania in the Tehsil Sukinda in the District of Jajpur."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/4/2007-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st June, 2008** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE ARAEAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF REVENUE VILLAGAES OF RAVALKOLE, KISTAPUR AND PUDUR IN MEDCHAL MANDAL AND DEVARYAMZAL OF SHAMEERPET MANDAL IN RANGA REDDY DISTRICT OF ANDHRA PRADESH STATE."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

New Delhi-02, the 21st May 2008

No.U-16/53/1/2005/Med.II(Kerala) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kerala for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

| <u>NAME</u> | <u>Period</u> | <u>Name of Centre</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Dr. K. Muhammed | 1.2.2008 to 31.1.2009 | Kozhikode |
| (Dr.) KAMLESH KALRA Medical Commissioner | | |

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 27 February 2007

No.MCI-IMR./27923-24-25.—Whereas the Medical Council of India has in pursuance of Sub-Section (1) of Section 21 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 56) Maintained a register known as the Indian Medical Register which contains the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Medical Register and who possess any of the recognized medical qualifications under the Act.

Now, therefore in pursuance of Sub-Section (2) of Section 21 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 56) the Registrar, Medical Council of India, hereby directed that supplement to the Indian Medical Register for the year 2004 shall be published in Gazette of India for general information.

Lt. Col. Retd. (Dr.) A.R.N. Setalvad
Secy.